

परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम- उच्च माध्यमिक शिक्षक

1. सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे ।
2. पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्नपत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.30 घंटे होगी।
3. पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ) प्रकार के होंगे, जिनके चार विकल्प होंगे एक विकल्प सही होगा।
4. प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। क्रृत्यात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा।
5. प्रश्नपत्र के दो भाग होंगे। भाग अ एवं भाग ब । भाग अ, सभी के लिए अनिवार्य होगा भाग ब के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा ।
6. भाग अ के 4 खंड होंगे जिनमें अंकों का अधिभार निम्नानुसार होगा-

भाग	विषयवस्तु	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक
(i)	सामान्य हिन्दी	08 MCQ	08 Marks
(ii)	सामान्य अंग्रेजी	05 MCQ	05 Marks
(iii)	सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम , तार्किक एवं आंकिक योग्यता	07 MCQ	07 Marks
(iv)	शिक्षाशास्त्र (Pedagogy)	10 MCQ	10 Marks
	कुल	30 MCQ	30 Marks

7. भाग ब- 120 अंक का होगा एवं इस प्रश्नपत्रमें 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र के अंतर्गत 16 विषय नीचे तालिका में दिए अनुसार होंगे, जिसमें से अन्यथा अपने स्नातकोत्तर उपाधि के विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा।

क्र.	विषयवस्तु	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक
1	हिन्दी भाषा	120 प्रश्न	120 अंक
2	अंग्रेजी भाषा	120 प्रश्न	120 अंक
3	संस्कृत भाषा	120 प्रश्न	120 अंक
4	उर्दू भाषा	120 प्रश्न	120 अंक
5	गणित	120 प्रश्न	120 अंक
6	भौतिक विज्ञान	120 प्रश्न	120 अंक
7	जीव विज्ञान	120 प्रश्न	120 अंक
8	रसायन विज्ञान	120 प्रश्न	120 अंक
9	गृह विज्ञान	120 प्रश्न	120 अंक
10	वाणिज्य	120 प्रश्न	120 अंक
11	इतिहास	120 प्रश्न	120 अंक
12	भूगोल	120 प्रश्न	120 अंक
13	राजनीति शास्त्र	120 प्रश्न	120 अंक
14	अर्थशास्त्र	120 प्रश्न	120 अंक
15	कृषि	120 प्रश्न	120 अंक
16	समाजशास्त्र	120 प्रश्न	120 अंक

8. विषयवस्तु का स्तर

- प्रश्नपत्र के भाग अ में सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, पेड़ागाजी की विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के छात्र के मानसिक स्तर के समकक्ष होगा । हिन्दी व अंग्रेजी की विषय वस्तु का स्तर हायर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा के समकक्ष होगा।
- प्रश्नपत्र के भाग ब की विषय वस्तु का स्तर स्नातकोत्तर स्तर के समकक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र में प्रश्न म.प्र. राज्य के कक्षा 9 एवं 10 के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषयवस्तु पर आधारित होंगे लेकिन इनका कठिनाई स्तर एवं संबद्धता (लिंकेज) स्नातकोत्तर स्तर का होगा । प्रश्नपत्र की अवधारणा, समस्या समाधान और पेड़ागाजी की समझ पर आधारित होंगे।

आनुकूल  
लोक शिक्षण

1. सामान्य हिन्दी (General Hindi)- विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थक शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान, त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन, आदि।
2. सामान्य अंग्रेजी (General English)- Verb, Tense, Voice, Subject-Verb Agreement, Articles, Comprehension, Fill in the Blanks, Adverb, Error Correction, Sentence Re-Arrangement, Unseen Passage, Vocabulary, Antonyms, Synonyms, Grammer, Idiom and Phrase etc.
3. सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम (General Knowledge & Current Affairs) समसामयिक मामले/राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास व भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय व संसार का भूगोल- भारत व संसार का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल आदि। भारतीय राजनीति व शासन तंत्र-संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायतीराज, सार्वजनिक मूद्दे, धाराएं व अधिकार आदि। आर्थिक व सामाजिक विकास-सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्रों में पहलें आदि। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैवविविधता, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान आधारित सामान्य मुद्दे। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्यप्रदेश का इतिहास, भूगोल व राजनीति। मध्यप्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास।

Current Affairs/ events of national and international importance, History of India and Indian National Movements, Indian and World Geography- Physical, Social, Economic geography of India and the World etc. Indian Polity and Governance- Constitution, Political System, Panchayati Raj, Public issues, Articles, Rights etc. Economic and Social development, Poverty, Inclusion, Demographics, Social Sector initiatives etc. General issues on Environment, Ecology, Bio-diversity, Climate change, General science. Indian culture, national and international sports, History, geography, and political science of Madhya Pradesh, economic and social development of Madhya Pradesh.

#### 4. तार्किक एवं आंकिक योग्यता (Reasoning and Numerical Ability)

- अ. तार्किक योग्यता- सामान्य मानसिक व विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक/तर्कयुक्त रीजनिंग, संबंध व पदानुक्रम, एनालॉजी, दावा, सत्य कथन, कोडिंग व डिकोडिंग, स्थितिजन्य तर्क, श्रंखला व पैटर्न जिसमें शब्द और वर्ण शामिल हों।
- ब. आंकिक योग्यता- दो एवं तीन आयामी वेन आरेख आधारित प्रश्न, संख्या पैटर्न, श्रंखला अनुक्रम, संख्याओं संबंधी आधारभूत ज्ञान (संख्याएं और उनके संबंध, परिमाण का क्रम आदि), अंकगणितीय अभिवृत्ति, आंकड़ों की व्याख्या (आलेख, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता, आदि), विभिन्न संदर्भों में दिशा ज्ञान, विश्लेषण व व्याख्या।

**a) Reasoning Ability-** General Mental/ Analytical Ability, Verbal/Logical reasoning, Relations & Hierarchies, Analogies, Assertion, Truth Statements, Coding & Decoding, Situational Reasoning, Series & Patterns involving words & Alphabets.

**b) Numerical Ability-** Two and three dimensional/ Venn diagrams based questions, Number patterns, Series Sequences, Basic Numeracy (numbers and their relations, order of magnitude etc.), Aithmatic aptitude, Data interpretation (Charts, Graphs or Tables, Data sufficiency etc.), Direction sense, Analysis and interpretation in various contexts.

#### 5. पेडागोजी (Pedagogy)-

##### I- पेडागोजी संबंधी मुद्दे-

- अ. पाठ्यचर्या: अर्थ, सिद्धांत, पाठ्यचर्या संगठन के प्रकार, दृष्टिकोण।
- ब. योजना: अनुदेशन योजना: वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ योजना।
- स. अनुदेशन सामग्री व संसाधन: पाठ्यपुस्तकें, अभ्यासपुस्तिकाएं, पूरक समग्री- दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कलब, संग्रहालय- समुदाय, सूचना व संप्रेषण तकनीकी।
- द. मूल्यांकन: प्रकार, उपकरण, अच्छे टेस्ट की विशेषताएं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण का विश्लेषण व व्याख्या।

##### II- समावेशित शिक्षा-

- अ. विविधता को समझना: अवधारणा के प्रकार (विविधता के आयाम के रूप में दिव्यांगता)।
- ब. सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता, दिव्यांगता के वर्गीकरण व इसके शैक्षिक प्रभाव, संवेदी अक्षमता (श्रवण अक्षमता एवं बढ़िरांधता), संज्ञानात्मक दिव्यांगताएं (स्वलीनता, बौद्धिक दिव्यांगता एवं सीखने की विशिष्ट दिव्यांगता), शारीरिक दिव्यांगताएं (प्रमस्तिष्क घात व चलन दिव्यांगता)।
- स. दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन का दर्शन।

द. समावेशन की प्रक्रिया: दिव्यांगताओं संबंधी मुद्दे।

इ. संवैधानिक प्रावधान।

फ. शिक्षा एवं तकनीकी।

III- संप्रेषण व चर्चा- संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण व भाषा, कक्षा में संप्रेषण, संप्रेषण में बाधाएं।

IV. शैक्षिक मनोविज्ञान- बच्चों के सीखने की रणनीतियां, सीखने को प्रभावित करने वाले कारकः अवधान और रुचि। बच्चे कैसे सीखते हैं?

#### I. Pedagogical concerns-

a) **Curriculum:** meaning, principles, types of curriculum organization, approaches.

b) **Planning:** Instructional plan- Year plan, Unit plan, Lesson plan.

c) **Instructional material and Resources:** Textbooks, Workbooks, Supplementary material- Audio Visual aids, Laboratories, Library, Clubs- Museums- Community, Information and Communication Technology.

d) **Evaluation:** Types, tools, Characteristics of a good test, continuous and comprehensive evaluation, analysis and interpretation of scholastic achievement test.

#### II. Inclusive education-

a) Understanding diversities: concept types (disability as a dimension of diversity)

b) Disability as a social construct, classification of disability and its educational implications- Sensory impairment (Hearing Impairment and Deaf Blind), Cognitive Disabilities (Autism Spectrum Disorder, Intellectual Disability and Specific Learning Disability), Physical Disabilities (cerebral palsy and locomotor).

c) Philosophy of inclusion with reference to children with disability.

d) Process of inclusion: concern issues across disabilities.

e) Constitutional provisions.

f) Education & Technology.

III. **Communication & interaction-** Theory of communication, Types of communication, Communication & language, Communication in the classroom, barriers in communication.

IV. **Educational Psychology-** Strategies of Childrens' learning, factors affecting learning- attention and interest. How children learn?!

#### प्रश्नपत्र भाग-ब

#### कुल अंक 120

प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम स्नातक के समकक्ष होगा।

##### 1. हिन्दी भाषा

###### अ. हिन्दी (आधार पाठ्यक्रम)

- हिन्दी की ध्वनि व्यवस्था और मानक हिन्दी- वर्ण- स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, अनुस्वार, अनुनासिक। वर्णमाला, मानकलिपि। उच्चारण, वर्तनी, शब्द, अर्थ एवं व्याकरण से संबंधित अशुद्धियाँ और उनका संशोधन। हिन्दी का शब्द भंडार- तत्सम, तद्वाव, देशज और विदेशी शब्द। शब्द रचना- उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास।
- हिन्दी की वाक्य रचना
  - वाक्य भेद: रचना की दृष्टि से- सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। अर्थ की दृष्टि से- विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मय वाचक, संदेहवाचक, इच्छा वाचक, संकेत वाचक। वाक्य का रूपांतर। विराम चिह्न।
  - हिन्दी की अर्थ व्यवस्था: पर्यायवाची, विलोम, एकार्थक, अनेकार्थक शब्द। अनेक के लिए एक शब्द। एक शब्द के विभिन्न प्रयोग। मुहावरे और लोकोक्तियाँ।
- अपठित गद्यांश, संक्षेपण।
- निबंध और पत्र लेखन।
- हिन्दी के प्रमुख लेखक और उनकी कृतियाँ।
- हिन्दी के प्रमुख कवि और उनकी कृतियाँ।

###### ब. हिन्दी (साहित्य)

- हिन्दी काव्य और उसका विकास : वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल- नामकरण, युग की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि प्रमुख प्रवृत्तियाँ, विषिष्ट रचनाकार एवं उनकी प्रतीनिधि रचनाएँ, युगीन परिस्थितियाँ एवं साहित्य पर उसका प्रभाव।
- हिन्दी गद्य और उसका विकास : गद्य की प्रमुख विधाएँ- निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना। गद्य की गौण विधाएँ- आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, डायरी, यात्रा-वृतान्त, साक्षात्कार। सभी प्रमुख एवं गौण विधाओं का प्रारंभ, विकास, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं।

- काव्यांग विवेचनः काव्य-परिभाषा, काव्य के विभिन्न भेद एवं उनका सामान्य परिचय, रस, छंद, अंलकार , काव्य गुण, शब्द शक्तियाँ।
- हिन्दी भाषा और साहित्य- भाषा, विभाषा, बोली, राष्ट्रभाषा का परिचय, बोली और भाषा में अंतर, हिन्दी भाषा का विकास, प्रयोजन मूलक हिन्दी- हिन्दी और आधुनिक जनसंचार माध्यम।

## 2. English

### Part-A.

- Use of articles, prepositions, conjunctions, verbs, modals, adverbs, tenses, finite–non finite clauses. Determiners Prefix & Suffix. Number, Gender, Pronouns.
- Transformation of sentences- active to passive, direct to indirect narration.
- Vocabulary, opposites, synonyms, one word substitution Homonyms,
- Reading comprehension. Unseen passage, Notemaking.

### Part-B.

#### Fiction:

1. Jane Austen- Pride and Prejudice,
2. Charles Dickens- A Tale of two Cities,
3. Indian: Anita Desai- Bye Bye Blackbird,
4. Khushwant singh- The Potrait of the Lady.

#### Drama:

1. Bernard Shaw- Arms and the Man,
2. William Shakespeare- The Tempest, Hamlet,
3. Indian: Rabindranath Tagore- The Poet and Pauper. Gitanjali, True Worship .

#### Poetry:

1. P.B. Shelley- Ode to Skylark,
2. Indian: Sarojini Naidu- The Broken Wings,
3. Rabindranath Tagore- Song No.-1 of The Gitanjali, Words Worth I Wandered Lonely as a Cloud,
4. William wordsworth- The World is too much with us, Tables Turned , the solitary Reaper,
5. Robert Frost – After Apple picking, The Road Not taken, Stopping by woods on a snowy evening,
6. Robert Browning - The Last Ride Together

#### Prose:

- 1.Francis Bacon- Of Studies, Of Friendship, William hazlitt Fathers letter ,
2. Charles Lamb- Dream Children, 3. Indian: Jawaharlal Nehru- Teenage, discovery of India, Nirad C. Chaudhuri - My Mother.

#### Figures of speech and forms of poetry:

- a) figures of speech- simile, metaphor, personification, paradox, irony.
- b) forms of poetry-sonnet, ode, lyric, elegy, satire.
- c) Indian writing in English.

#### Short Story:

1. R.K.Narayan- Swami and Friends, Novel –the Guide,

2. Mulk Raj Anand - The Lost Child.

## 3. संस्कृत

### 1. व्याकरण

- (अ) शब्द रूप- राम, कवि, भानु, लता, पितृ, नदी, वधू, मातृ, फल, वारि, आत्मन्, भवत्, भगवत्, मनस्, विद्वस्, पयस्। सर्व, तद, एतद्, यत्, इदम्, अस्मद्, युष्मद्।
- (ब) समास - सभी- नज् तत्पुरुष सहित।
- (स) सन्धि - तीर्णो (स्वर, व्यञ्जन, विसर्ग)- भेद सहित।
- (द) प्रत्यय - कृत प्रत्यय : (कृत्वा, ल्यप्, तुमुन्, क्त, क्तवतु, शत्, शानच्, तव्यत्, अनीयर।) तद्वित प्रत्यय : अण्, ठक्, मतुप्, इत्, तल्, ठक्। स्त्री प्रत्यय : टाप्, डीप।
- (इ) धातुरूप- प्रमुख पाँच लकारों में। (आत्मनेपटी, परस्मैपटी)
- (क) वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद् का सामान्य परिचय।
- (ख) रामायण एवं महाभारत का सामान्य परिचय।

- (ग) षट्दर्शन का सामान्य परिचय।
3. संस्कृत के प्रतिनिधि रूपकों का परिचय- (भास, कालिदास, शूद्रक एवं भवभूति की नाट्य कृतियों का परिचयात्मक ज्ञान।)
  4. संस्कृत साहित्य का इतिहास- महाकाव्य, गीति काव्य, गद्यकाव्य, चम्पू काव्य, कथा साहित्य।
  5. काव्य शास्त्र
    - (क) अलंकारों का सामान्य परिचय- उपमा, रूपक, वृष्टान्त, अर्थान्तरन्यास, उत्प्रेक्षा, यमक, अनुप्रास, श्लेष।
    - (ख) छन्दों का सामान्य परिचय-अनुष्टुप्, उपजाति, वंशस्थ, शिखरिणी, मालिनी, मन्दाक्रान्ता, शार्दूल विक्रीडित, इन्द्रवज्ञा।
    - (ग) रसों का सामान्य परिचय-
  6. (अ) कारक एवं विभक्तियों का सामान्य परिचय। उपपद विभक्ति सहित।
  - (स) हिन्दी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना।
  7. अनुच्छेदलेखनम्, कथानिर्माणम्।
  8. संस्कृत गिनती।
  9. अनुच्छेद एवं श्लोकों में से प्रश्न निर्माण।
  10. वाच्य परिवर्तनम्।

#### 4. उर्दू

##### 1. नसर (गद्य की सभी विधाएँ):

**सवानेह निगारी** - अलताफ हुसैन हाली, शिबली नौअमानी। **खाका निगारी** - मौलवी अब्दुल हक। **इन्शाईया निगारी-** मोहम्मद हुसैन आजाद, रशीद अहमद सिद्दीकी, पितरसबुखारी। **मकतूब निगारी-** अबुल कलाम आजाद, मिर्जा गालिब, सफिया अखतर। **तन्ज़ो-मज़ाह-** पं. रतननाथ सरशार, शफीका फरहत, मुजतबा हुसैन। **तनकीद निगारी-** आलेहमदसुरुर, एहतिशिम हुसैन। **दास्तान निगारी** - मीर अम्मन। **ड्रामा निगारी** - आगा हश्र, हबीब तनवीर। **अफसाना निगारी** - मुन्शीप्रेमचंद, राजेन्द्रसिंह बेदी, सआदतहसन मन्टो, इकबाल मजीद। **नाविल निगारी-** मिर्जाहादीरूसवा, कृष्णचन्द्र। **तर्जुमा निगारी-** सर सैयदएहमद खा, सैयद आबिद हुसैन। **रिपोर्टाज निगारी-** असमतचुगताई, काजीअब्दुल गफकार। **आपबीती-** अखतरउल ईमान। **सफर नामा-** कुरअतउलऐन हैंदर।

##### 2. शैरी असनाफ (पदय की विद्याएँ):

**गजल-** वली दक्कनी, मीरतकी मीर, ख्वाजामिर दर्द, मिर्जा गालिब, फिराक गोरखपुरी। **मसनवी-** मीरहसन, दयाशंकर नसीम। **नज़र्में-** नजीरअकबरआबादी, अखबरइलाहबादी, ब्रजनारायण चकवस्त, अल्लामा इकबाल। **क़सीदा-** मिर्जामोहम्मद रफी सौदा, जौक देहलवी, मौहसिन काकोरवी। **मरसिया-** मीर-अनीस, मिर्जा दबीर। **क़ताअत-** अलीसरदार जाफरी, साहिर लुधियानवी। **रुबाई-** जोषमलीह आबादी, गौहरजलाली। **दोहा-** निदाफ़ाजली, डॉ. शाहिद मीर।

**3. कवाइद (व्याकरण)-** कलमा ओर इसके इकसाम, जुमला और इसके इकसाम, हरूफ और इसके इकसाम, रम्जूजे औंकाफ, साबके-लाहेके, हरूफ ए शमसी और हरूफ ए कमरी, महावरे, जर बुल मिसाल, मूताशाहबेह अल्फाज, हमसौत अल्फाज, हममॉयनी अल्फाज, जू-मायने अल्फाज, तजनीस ए ताम, तजनीस ए खती, तलमीय, तशबीह, इसताराह, मुबालगा, तज़ाद

**4. उर्दू ज़बान की अहमियत और इरतिका (उर्दू भाषा का महत्व एवं विकास)-** उर्दू ज़बान का आगाज और इरतिका के मुख्तलिफ नज़रयात, उर्दू हरूफ ए तहिज्जी और हकारी आवाजें, ज़बान और बोली मे फ़र्क, मादरी ज़बान की सहमियत।

**5. तेहरीरी सलाहियत और फन-(लेखन प्रतिभा)-** खतूत नवीसी, दरखवास्त नवीसी, मज़मून निगारी। स्वालात का तरीका व किसमें।

#### 5. गणित

**1. अंकगणित -संख्याएँ** (प्राकृत संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, पूर्णांक, परिमेय व अपरिमेय संख्याएँ, वास्तविक संख्याएँ, सम्मिश्र संख्याएँ), ऐकिक नियम, औसत, लाभ-हानि, सरल व्याज, चक्रवृद्धि व्याज, लंबाई, वज़न, धारिता, समय, सरल भिन्न, दशमलव भिन्न, प्रतिशत, अनुपात-समानुपात, गुणज व गुणनखण्ड, लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक, लघुगणक।

**2. बीजगणित-** बीजीय व्यंजक व उनके गुणनखण्ड, एक व दो चर वाले ऐखिक समीकरण तथा उनके अनुप्रयोग, समुच्चय व उन पर संक्रियाएँ, आंशिक भिन्न, युगपत समीकरण, वर्गात्मक समीकरण के सिद्धांत।

**3. रेखीय असमिका-** एक चर की ऐखिक असमिका के बीजगणितीय हल एवं संख्या रेखा पर प्रदर्शन, दो चरों की ऐखिक असमिका का आलेखीय हल, दो चरों की ऐखिक असमिका के निकायों का हल ग्राफ द्वारा, निरेपक्ष मान, माध्यों की असमता, काचे स्वार्ज असमिका, चेबसेव असमिका।

**4. सम्बन्ध एवं फलन -** क्रमित युग्म, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, दो परिमित समुच्चयों के कार्तीय गुणन मे अवयवों की संख्या, वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों का स्वयं से कार्तीय गुणन (upto R x R x R), सम्बन्ध की परिभाषा, सचित्र आरेख, प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर। फलन: एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय पर विषेष प्रकार का सम्बन्ध, फलन का

सचित्र आरेख, प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर। वास्तविक चरों का वास्तविक मान फलन, वास्तविक फलनों का प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर। अचर फलन, तत्समक, बहुपद, परिमेय, मापांक, सिग्नम फलन, महत्तम पूर्णांक फलन तथा उनके ग्राफ। फलनों के योग, अंतर, गुणा एवं भाग। समुच्चय तथा उनका निरूपण, समुच्चयों का संघ, सर्वनिष्ठ तथा पूरक तथा उनके बीज गणितीय गुणधर्म, सम्बन्ध, तुल्यता सम्बन्ध, प्रतिवित्रण, एकैक, अन्तर्क्षेपी एवं आच्छादक प्रतिवित्रण, प्रतिवित्रण का संयोजन। द्वि-आधारी संक्रियाएं।

**5. सारणिक एवं आव्यूह-** परिभाषा एवं प्रकार, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, सारणिक का अनुप्रयोग, आव्यूहों पर संक्रियाएँ व क्रम विनिर्मय आदि नियम, परिवर्त, सहखण्ड व प्रतिलोम आव्यूह, रेखिक समीकरण का आव्यूह द्वारा हल, सीमेट्रिक्स, स्क्यू सीमेट्रिक्स, मेट्रिक्स।

**6. ज्यामिति-** कोण व उसके प्रकार, समांतर रेखाएँ, समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण, त्रिभुज- प्रकार व गुणधर्म, त्रिभुजों की सर्वगसमता, चतुर्भुज- प्रकार व गुणधर्म, वृत्त के कोण संबंधी गुणधर्म, समान्तर रेखाएं, त्रिभुज, चतुर्भुज व वृत्त पर आधारित प्रमेय एवं प्रमेयों पर आधारित प्रश्न, ज्यामितीय आकृतियाँ, रचनाएँ व गुणधर्म।

**7. निर्देशांक ज्यामिति-** बिन्दुओं के निर्देशांक, सरल रेखा, रेखा युग्म, वृत्त एवं वृत्त संकाय, शंकु परिषेद, त्रिविमीय ज्यामिति, गोला।

**8. अदिश व सदिश राशियाँ-** सदिश के परिमाण एवं दिशा, स्थिति सदिश, द्विविमीय एवं त्रिविमीय सदिश, सदिशों के गुणनफल एवं उनके गुणधर्म, बलयुग्म का आधौर्ण, त्रिविमीय ज्यामिति में सदिश के अनुप्रयोग, असमान्तर और असमतलीय दो रेखाओं के बीच में न्यूनतम दूरी सदिश द्वारा।

**9. क्षेत्रमिति-** त्रिभुज व चतुर्भुज की परिमाप व क्षेत्रफल, घन, घनाभ, शंकु, गोला, बेलन आदि के पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन।

**10. त्रिकोणमिति-** त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएँ व समीकरण, त्रिभुज के गुण व त्रिभुज के हल, ऊँचाई व दूरी, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन।

**11. सांख्यिकी-** माध्य, माध्यिका, बहुलक, दण्ड आरेख,,प्रकीर्णन की माप, परिसर, माध्य विचलन, प्रसरण तथा मानक विचलन, बारम्बारता बंटनों का विष्लेषण, क्रमचय-संचय, प्रायिकता।

**12. गणितीय विवेचन-** कथन, पुराने जात कथनों से नए कथन, विषेष षट्व/वाक्यांष, अर्तभाव, कथनों की वैधता प्रमाणित करना।

**13. अनुक्रम तथा श्रेणी-** समान्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी एवं विशेष श्रेणियाँ, चर घातांकीय व लघुगणकीय श्रेणी।

**14. मूलसंख्या सिद्वांत-** पियानो का अभिगृहीत, आगमन का सिद्वान्त, प्रथम सिद्वांत, द्वितीय सिद्वांत, तृतीय सिद्वांत, बेसिस रिप्रेंटेशन प्रमेय, महत्तम पूर्णांक फलन, विभाज्यता का परीक्षण, यूक्लिड, एलोगोरिथम, अद्वितीय गुणनखण्ड प्रमेय, सर्वांगसमता, संख्या के भाजकों का योग, यूलर का टोसेंट प्रमेय, फरमेट और विल्सन की प्रमेय।

**15. अवकलन एवं समाकलन-** फलन, सीमा एवं सांतत्य, अवकलन, उत्तरोत्तर अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के मूलभूत प्रमेय, निश्चित समाकलन, अवकल समीकरण।

**16. केलकुलस-** लैब्नीज प्रमेय, मैकलरैन व टेलर श्रेणियों का विस्तार। अपरिमेय बीज गणितीय फलनों का समाकलन, रिडक्सन फार्मूले। रेखिक समीकरण, समीकरण जिन्हें रेखिक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, एकजेक्टर अवकल समीकरण। रेखिक अवकल समीकरण (Linear differential equation), समघातीय रेखिक अवकल समीकरण (ordinary), द्वितीय आर्डर के रेखिक अवकल समीकरण।

## 17. उच्च कलन-

- अनुक्रम की परिभाषा, अनुक्रम की सीमा पर प्रमेय, परिबद्ध एवं एकदिष्ट अनुक्रम, कोशी का अभिसरण, निकर्ष अऋणात्मक पदों की श्रेणी, तुलना परीक्षण, कोशी का समाकल परीक्षण, अनुपात परीक्षण, रॉबे परीक्षण, लॉगेरिथ्मीय, डी मारगन एवं बटर्सेंड के परीक्षण (बिना प्रमाण), एकान्तर श्रेणी, लैब्नीज का प्रमेय, निरपेक्ष एवं प्रतिबंधित अभिसरण।
- सांतत्व (एक चार), अनुक्रमणीय सांतत्व, संतत फलनों के गुणधर्म, एक समान सांतत्य, अवकलनीयता का शृंखला नियम, अध्यमान प्रमेय एवं उनका ज्यामितीय अर्थ, अवकलों के लिए डारबूर का मध्यस्थता मान प्रमेय।
- दो चरों के फलनों की सीमा एवं सांतत्व आंशिक अवकलन, चरों का परिवर्तन, समघात, फलनों पर आयलर का प्रमेय, दो चरों के फलनों के लिए टेलर का प्रमेय, जेकोबियन।
- एन्विलोप, एवलूट्स् दो चरों के फलनों का उच्चिष्ठ, निम्निष्ठ एवं सेंडल बिन्दु लगांज, की गुणांक विधि, अनिधार्य रूप।
- बीटा एवं गामा फलन, द्विश एवं त्रि-समाकल, डीरिश्लेट समाकल, द्विश समाकल के क्रम का परिवर्तन।

## 18. अवकल समीकरण

- अवकल समीकरणों का श्रेणी हल- घात, श्रेणी-विधि, बेसल, लेंडर समीकरण एवं फलन एवं उनके गुणधर्म, पुनरागमन एवं जनक-संबंध फलनों की लम्बिकता, स्टर्म लुइविले प्रश्न, आइगेन फलनों की लम्बिकता, आइगेनमान की वास्तविकता।

- लाप्लास रूपान्तरण- लाप्लास रूपान्तरण की ऐखिकता, लाप्लास रूपान्तर के अस्तित्व प्रमेय, अवकलों एवं समाकलों के लाप्लास रूपान्तर, विस्थापन प्रमेय, प्रमेय रूपान्तरों का अवकलन एवं समाकलन, प्रतिलोम लाप्लास फलन, कन्वलूशन प्रमेय, अचर गुणांकों वाले अवकल समीकरण पर लाप्लास समीकरण के अनुप्रयोग।
- प्रथम कोटि के आंशिक अवकल समीकरण, लॉगरांज का हल, कुछ विशिष्ट प्रकार के समीकरण जिन्हें सरलता से व्यापक विधि के अलावा विधि से हल किया जा सके। चारपित की हल की व्यापक विधि।
- द्वितीय एवं उच्चतर कोटि के आंशिक अवकल समीकरण, द्वितीय कोटि के ऐखिय आंशिक अवकल समीकरणों का वर्गीकरण, अचर गुणांकों के समघाती एवं असमघाती समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण जो अचर गुणांकों वाले समीकरणों में परिवर्तनीय है।
- विचरण का कलन- स्थिर सीमान्त वाले विचरणीय प्रश्न, प्रथम कोटि अवकल एवं एक स्वतंत्र चर को अंतर्विष्ट करने वाले फलनक के लिए आयलर का समीकरण, एकस्ट्रीमलस उच्चतर कोटि के अवकलों पर आधारित फलनक, एक से अधिक स्वतंत्र चर पर आधारित फलनक, प्राचल रूप में विचरणीय प्रश्न, रूपान्तरण के अधीन आयलर के समीकरण की अपरिवर्तता।

19. गणितीय आगमन एवं द्विपद प्रमेय।

20. लीनियर प्रोग्रामिंग।

21. बीजगणित एवं त्रिकोणमिति

- पंक्ति एवं स्तंभ आव्यूहों की एक घाततः स्वतंत्रता एवं परतंत्रता, पंक्ति स्तंभ व आव्यूह की जाति, पंक्ति व स्तंभ की जाति तुल्यता, आइगेनमान, आइगेन सदिश व आव्यूह का अभिलाक्षणिक समीकरण, कैले हेमिल्टन प्रमेय और आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने में उसका उपयोग।
- गुप- उदाहरण व प्रगुण, सब गुरुप (उपसमूह), चक्रीय समूह, को सेट डी कम्पोजीशन, लागांज प्रमेय, फर्मेट्स एवं यूलर्स प्रमेय, समाकारिता एवं तुल्यकारिता, नार्मल सब गुरुप, कोसेंट गुप।
- समाकारिता के मूलभूत प्रमेय, क्रमचय गुप, सम और विषम क्रमचय, रिंग, सबरिंग, इंटीग्रल डोमेन एवं फील्ड, रिंग के प्रगुण।

22. सदिश विश्लेषण एवं ज्यामिति

- तीन सदिशों का सदिश व अदिश गुणन, सदिशों के व्युत्क्रम (Reciprocal), सदिश अवकलन, ग्रेडिएंट, डाइवर्जेंस व कर्ल।
- सदिश समाकलन, गॉस, ग्रीन व स्टोक के प्रमेय।
- दिए गए आधार वाले शंकु का समीकरण, समकोणीय शंकु (right circular cone), बेलन का समीकरण और उसके प्रगुण।

23. स्थैतिकी

- समतलीय बलों के सन्तुलन का विश्लेषात्मक प्रतिबन्ध, आभासी कार्य (Virtual), रज्जुका।
- त्रिविमीय बल, पॉयनसांट मध्य अक्ष, शून्य रेखा एवं तल, स्थायी एवं अस्थायी संतुलन।

24. गतिकी विज्ञान

- त्रिजीय एवं तिर्यग्रेखा दिशा के परितः वेग एवं त्वरण, स्पर्शीय एवं अभिलंब के परितः वेग एवं त्वरण, सरल हरमिति गति, प्रत्यास्थ डोरियां।
- समतल व असमतल वक्र पर गति, प्रतिरोधी माध्यम में गति, विभिन्न संहति के कणों की गति।
- केन्द्रीय कक्ष केपलर के गति नियम, त्रिविम दिशा में कणों की गति।

25. वास्तविक विश्लेषण

- रीमान समाकलन, संतत एवं एकदिष्ट फलनों की समाकलनीयता, समाकलन के मूलभूत प्रमेय, समाकलन के लिए माध्यमान प्रमेय। आंशिक अवकलन तथा दो चरों के वास्तविक मान फलनों की अवकलनीयता। स्वार्ज एवं यंग प्रमेय, अस्पष्ट फलन प्रमेय।
- विषम समाकल एवं विषम समाकल का अभिसरण के लिये परीक्षण, तुलना परीक्षण, आबंल परीक्षण, डिरण्ले का परीक्षण, फुलानी समाकल, प्राचलित फलनों के समाकल की संतीयता, अवकलनीयता एवं समाकलनीयता। फोरियर श्रेणी, अर्ध एवं पूर्ण अंतराल के लिए।

26. सम्मिश्र विश्लेषण

- क्रमित युग्म के रूप में सम्मिश्र संख्याएं,
- सम्मिश्र संख्याओं की ज्यामितीय व्याख्या स्ट्रियोग्राफिक प्रक्षेप सम्मिश्र फलनों की संततता एवं अवकलनीयता, विश्लेषक- फलन, कोशी-रीमॉन समीकरण, हारमोनिक फलन।
- मॉबियस रूपान्तरण, स्थिर बिन्दु, तिर्यक अनुपात, व्युक्रम बिन्दु तथा क्रांतिक प्रतिचित्रण, कॉनफारमल प्रति चित्रण।

27. दूरिक समष्टि

- दूरिक समष्टि की परिभाषा एवं उदाहरण, सामीप्य बिन्दु, अंत बिन्दु, विवृत एवं संवृत्त समच्चय, संवरणक एवं अभ्यंतर, परिसीमा बिन्दु दूरिक समष्टि का उप समिष्टि, कॉर्शी अनुक्रम, पूर्णता, केन्टर सर्वनिष्ट प्रमेय, कांट्रेक्शन

सिद्धान्त, वास्तविक संख्याओं का पूर्ण क्रमित क्षेत्र। सघन उपसमुच्चय, बेरर केटगरी प्रमेय, विघटीय प्रथम एवं द्वितीय गणनीय समष्टि। संतत फलन, विस्तार प्रमेय एक समान संतता। संहिता, अनुक्रमणीय संहिता, पूर्ण परिबद्ध समष्टि, परिमित सर्वनिष्ट व गुण, संतत फलन एवं संहिता समुच्चय, संबद्धता।

## 28. अमूर्त बीजगणित

- ग्रुप स्वाकारिता (स्वसमरूपता), आंतर स्वाकारिता, स्वाकारिता, ग्रुप एवं उनकी गणना संयुग्मता का संबंध, नार्मलाईजर, सेन्ट्रीलाइजर गणतीय सिद्धान्त एवं परिमित ग्रुप का वर्ग समीकरण, कोशी एवं सेलो प्रमेय, परिमित आवेली एवं अनआवेली समूह के लिए।
- रिंग (वलय) थ्योरी- रिंग समाकारिता, आईडियल एवं भाजन वलय पूर्णांकीय डोमेन (प्रांत)की भाज्य फील्ड, युक्लीडीयन रिंग, बहुपद रिंग, परिमेय फील्ड पर बहुपद, क्रमविनिमय रिंग पर बहुपद रिंग, अद्वितीय गुणनखण्ड डोमेन।
- सदिश समष्टि की परिभाषा एवं उदाहरण, उपसमष्टि, उपसमष्टियों का योग एवं सरल योग, ऐखिक विस्तृति ऐखिक आश्रितता एवं स्वातंत्र्य एवं उनके मूल गुणधर्म, आधार, परिमित विमीय समष्टियों, आधारों के अस्तित्व प्रमेय, आधार समुच्चय में अवयवों की सख्त्या। अविचरणीयता विमा, परिमित विमीय सदिश समष्टि की उपसमष्टि की पूरक उपसमष्टि का अस्तित्व, उपसमष्टियों के योग की विमा, भोज्य समष्टि एवं उसकी विमा।
- ऐखिक रूपान्तरण एवं उनका आव्यूह निरूपण, ऐखिक रूपान्तरणों का बीजगणित, जाति-शून्यता प्रमेय। आधार का परिवर्तन, द्वैत समष्टि, द्विद्वैत समष्टि एवं प्रकृत तुल्यकारिता, ऐखिक रूपान्तरण का बीजीय समष्टि, ऐखिक रूपान्तरण के आइगेन मान एवं आइगेन सदिश, विकर्णीकरण उपसमष्टि का द्वि-एकघाती, द्विघाती एवं हरमिशियन समघात।
- आंतर गुणन समष्टि-कोशी - स्वार्ज असमिका, लाम्बिक सदिश, लाम्बिक पूरक, प्रासामान्य लाम्बिक समुच्चय एवं आधार, बेसल्स की असमिका, ग्रामष्टिक लाम्बिकता प्रक्रम।

## 5. MATHEMATICS

**1. Arithmetic-** Numbers (natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, rational numbers, irrational numbers and real numbers, complex numbers), unitary method, average, profit & loss, simple interest, compound interest, length, mass, capacity, time, simple fractions, decimal, percentage, ratio & proportion, multiple & factor, lowest common multiple & highest common factor, logarithm.

**2. Algebra-** Algebraic expressions & their factors, linear equations with one & two variables and their applications, sets & operations on sets, partial fraction, simultaneous equations, quadratic equations & their principle.

**3. Linear Inequalities-** Algebraic solutions of linear inequalities in one variable and their representation on the number line. Graphical solution of linear inequalities in two variables. Solution of system of linear inequalities in two variables-graphically. Absolute value, Inequality of means, Cauchy-Schwarz Inequality, Tchebychef's Inequality.

**4. Relations & Functions-** Ordered pairs, Cartesian product of sets. Number of elements in the cartesian product of two finite sets. Cartesian product of the reals with itself (upto R x R x R). Definition of relation, pictorial diagrams, domain, co-domain and range of a relation. Function as a special kind of relation from one set to another. Pictorial representation a function, domain, co-domain & range of a function. Real valued function of the real variable, domain and range of these functions, constant, identity, polynomial, rational, modulus, signum and greatest integer functions with their graphs. Sum, difference, product and quotients of functions. Sets and their Representations. Union, intersection and complements of sets, and their algebraic properties, Relations, equivalence relations, mappings, one-one, into and onto mappings, composition of mappings. Binary operations.

**5. Determinants and Matrices.** Definition & types, area of a triangle, application of determinants operations on matrices and commutative laws etc. transpose, co-adjacent and inverse matrix, application of matrices for solving linear equations, Symmetric Matrix, Skew Symmetric Matrix.

**6. Geometry-** Angle & their types, parallel lines. triangle –types & properties, congruency of triangles, quadrilateral – types & properties, parallel lines, theorems on triangle, quadrilateral & circle and questions based on theorems, geometrical shapes, constructions & properties.

**7. Coordinate Geometry-** Coordinates of a point, line, pairs of lines, circle and family of circles, conic section, three dimensional geometry, sphere.

**8. Scalar and Vector Quantities-** Magnitude and direction of vector, position vector, two dimensional & three dimensional vector, scalar & vector products of vector and their properties, moment of couple, application of vectors in three dimensional geometry, to find out the distance between two skew lines

**9. Mensuration-** Area & perimeter of triangle & quadrilateral, surface area & volume of cube, cuboids, cone, sphere, cylinder etc.

**10. Trigonometry** - Trigonometrical functions, identities and equations, properties of triangle, solution of triangles, height and distance, inverse trigonometrical functions.

**11. Statistics**- Mean, Median, Mode, Bar Diagram, Measures of dispersion, Range, Mean Deviation, Variance and Standard Deviation, Analysis of frequency Distributions, Permutation and combination, probability.

**12. Mathematical Reasoning**- Statements, New statement from Old, Special Words/Phrases, Implications, Validating Statements.

**13. Sequences and Series**- Arithmetic progression, geometric progression, harmonic progression, special series, exponential and logarithmic series.

**14. Elementary Number Theory**- Peano's Axioms, Principle of Induction; First Principle, Second Principle, Third Principle, Basis, Representation Theorem, Greatest Integer Function Test of Divisibility, Euclid's algorithm, The Unique Factorisation Theorem, Congruence, Sum of divisors of a number . Euler's totient function, Theorems of Fermat and Wilson.

**15. Differentiation & Integration**– Function, limit and continuity, differentiation, successive differentiation, application of derivatives, integration, fundamental theorem on integration, definite integration differential equation.

**16. Calculus**- Leibnitz theorem. Maclaurin and Taylor series expansions. Linear equations and equations reducible to the linear form. Exact differential equations. Linear differential equations with constant coefficients. Homogeneous linear ordinary differential equations. Linear differential equations of second order.

**17. Advanced Calculus.**

- Definition of a sequence. Theorems on limits of sequences. Bounded and monotonic sequences. Cauchy's convergence criterion. Series of non-negative terms. Comparison tests. Cauchy's integral test. Ratio tests. Raabe's, logarithmic, de Morgan and Bertrand's tests (without proofs). Alternating series. Leibnitz's theorem. Absolute and conditional convergence.
- Continuity of single variable, Sequential continuity. Properties of continuous functions. Uniform continuity. Chain rule of differentiability. Mean value theorems and their geometrical interpretations. Darboux's intermediate value theorem for derivatives.
- Limit and continuity of functions of two variables. Partial differentiation. Change of variables. Euler's theorem on homogeneous functions. Taylor's theorem for functions of two variables. Jacobians.
- Envelopes. Evolutes. Maxima, minima and saddle points of functions of two variables. Lagrange's multiplier method. Indeterminate forms.
- Beta and Gamma functions. Double and triple integrals. Dirichlet's integrals. Change of order of integration in double integrals.

**18. Differential Equations**

- Series solutions of differential equations- Power series method, Bessel and Legendre equations, Bessel's & Legendre's functions and their properties- recurrence and generating relations. Orthogonality of functions. Sturm-Liouville problem. Orthogonality of eigen-functions. Reality of eigen-values.
- Laplace transformation- Linearity of the Laplace transformation. Existence theorem for Laplace transforms. Laplace transforms of derivatives and integrals. Shifting theorems. Differentiation and integration of transforms. Inverse Laplace transforms. Convolution theorem. Application of Laplace transformation in solving linear differential equations with constant coefficients.
- Partial differential equations of first order. Lagrange's solution. Some special types of equations, which can be solved easily by methods other than the general method. Charpit's general method of solution.
- Partial differential equations of second & higher orders. Classification of linear partial differential equations of second order. Homogeneous and non-homogeneous equations with constant coefficients. Partial differential equation reducible to equations with constant coefficients.
- Calculus of Variations- Variational problems with fixed boundaries – Euler's equation for functionals containing first order derivative and one independent variable. Extremals. Functionals dependent on higher order derivatives. Functionals dependent on more than one independent variable. Variational problems in parametric form. Invariance of Euler's equation under coordinates transformation.

**19. Mathematical induction & binomial theorem**

**20. Linear Programming**

**21. Algebra and Trigonometry**

- Linear independence & dependence of row & column matrices, Row rank, column rank and rank of a matrix, Equivalence of column and row ranks. Eigen values, eigen vectors and characteristics equation of a matrix. Cayley Hamilton theorem and its use in finding inverse of a matrix.

- Definition of a group with examples and simple properties, Sub groups, Cyclic groups, Coset decomposition, Lagrange's theorem, Fermat's and Euler's theorems. Homomorphism and isomorphism. Normal subgroups. Quotient groups.
- The fundamental theorem of homomorphism. Permutation groups. Even and odd permutations, rings, sub-rings, integral domains and fields. Characteristics of ring.

## 22. Vector Analysis and Geometry

- Scalar and vector product of three vectors, Reciprocal vectors, Vector differentiation. Gradient, divergence and curl.
- Vector integration. Theorems of Gauss, Green, Stokes.
- Equation of cone with given base, Right circular cone, Equation of cylinder and its properties.

## 23. Statics

- Analytical conditions of equilibrium of Coplanar forces. Virtual work. Catenary.
- Force in three dimensions. Poinsot's central axis. Null lines and planes. Stable and unstable equilibrium.

## 24. Dynamics

- Velocities and accelerations along radial and transverse directions and along tangential and normal directions. Simple harmonic motion. Elastic strings.
- Motion on smooth and rough plane curves. Motion in a resisting medium. Motion of particle of varying mass.
- Central Orbits. Kepler's laws of motion. Motion of a particle in three dimensions.

## 25. Real Analysis

- Riemann integral. Integrability of continuous and monotonic functions. The fundamental theorem of integral calculus. Mean value theorems of integral calculus. Partial derivation and differentiability of real-valued functions of two variables. Schwarz and the Young's theorem. Implicit function theorem.
- Improper integrals and their convergence. Comparison tests, Abel's and Dirichlet's tests, Frullani's integral, integral as a function of parameter, continuity, derivability, Fourier series of half & full intervals.

## 26. Complex Analysis

- Complex numbers as ordered pairs. Geometric representation of Complex numbers. Stereographic projection.
- Continuity & differentiability of Complex functions, Analytic functions, Cauchy-Riemann equations, harmonic functions.
- Möbius transformations, fixed points, cross ratio, inverse points and critical mapping, Conformal mapping.

## 27. Metric Spaces

- Definition and examples of metric spaces. Neighbourhoods. Limit points. Interior points. Open and closed sets. Closure and interior. Boundary points. Sub-space of a metric space. Cauchy sequences. Completeness. Cantor's intersection theorem. Contraction principle. Real numbers as a complete ordered field, dense subsets, Baire Category theorem, separable, second countable and first countable spaces.
- Continuous functions, extension theorem, uniform continuity.
- Compactness, sequential compactness, totally bounded spaces, finite intersection property, continuous functions and compact sets, connectedness.

## 28. Abstract Algebra

- Group – Automorphisms, inner automorphism. Automorphism groups. Conjugacy relation and centraliser, normaliser. counting principle and the class equation of a finite group, Cauchy's theorem and Sylow's theorems for finite abelian groups and non abelian groups.
- Ring theory- Ring homomorphism. Ideals and Quotient Rings, field of quotients of an integral domain, Euclidean rings, polynomial rings, polynomials over the rational field, polynomial rings over commutative rings, unique factorization domain.
- Definition and examples of vector spaces. Subspaces. Sum and direct sum of subspaces. Linear span. Linear dependence, independence and their basic properties. Basis. Finite dimensional vector spaces, existence theorem for bases, invariance of the number of elements of a basis set, dimension, existence of complementary subspace of a finite dimensional vector space, dimension of sums of subspaces, quotient space and its dimension.
- Linear transformations and their representation as matrices, the Algebra of linear transformations, the rank nullity theorem, change of basis, dual space, bidual space and natural isomorphism, adjoint of a linear transformation, eigen values and eigen vectors for a linear transformation, diagonalisation, bilinear, quadratic and Hermitian forms.
- Inner product spaces- Cauchy- Schwarz inequality, orthogonal vectors, orthogonal complements, orthonormal sets and bases, Bessel's inequality for finite dimensional spaces, Gram-Schmidt orthogonalization process.

## 6. भौतिक विज्ञान

**1. भौतिक विश्व और मापन-** मापन की आवश्यकता: मापन की इकाइयाँ: मात्रक प्रणालियाँ: एसआई मात्रक, मूल और व्युत्पन्न मात्रक। लंबाई, द्रव्यमान और समय का मापन: उपकरणों की सटीकता: माप में त्रैटियाँ: सार्थक अंक। विमीय विश्लेषण और इसके अनुप्रयोग।

**2. गतिकी-** निर्देश तन्त्र। एक, दो और तीन आयाम में गति: स्थिति-समय ग्राफ, चाल और वेग। एक समान और परवर्ती गति, औसत चाल और तात्कालिक वेग। एक समान रूप से त्वरित गति, वेग-समय, स्थिति-समय ग्राफ, एक समान त्वरित गति के लिए संबंध। सदिश: स्थिति और विस्थापन सदिश। सदिशों का योग और अन्तर। सापेक्ष वेग सदिश के अदिश एवं सदिश ग्रॅननफल। इकाई सदिश: समतल में सदिश का वियोजन-आयताकार घटक, समतल में गति एक समान वेग एवं एक समान त्वरण के उदाहरण, प्रक्षेप्य गति।

**3. गति के नियम-** बल की अवधारणा। जड़त्व, न्यूटन का गति का पहला नियम: संवेग, न्यूटन का गति का दूसरा नियम: आवेग: न्यूटन का गति का तीसरा नियम। रैखिक संवेग संरक्षण का नियम और उसके अनुप्रयोग। संगामी बलों का संतुलन। घर्षण के प्रकार, घर्षण के नियम, एक समान वृत्तीय गति।

**4. कार्य, ऊर्जा और शक्ति-** नियत बल और परिवर्तनीय बल द्वारा किया गया कार्य: गतिज ऊर्जा, कार्य-ऊर्जा प्रमेय, शक्ति स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा। कमानी की स्थितिज ऊर्जा संरक्षी बल: यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण (गतिज और स्थितिज ऊर्जा): असंरक्षी बल, एक और दो विमीय, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट।

**5. कण निकाय की गति एवं दृढ़ पिण्ड-** दो कण प्रणाली के द्रव्यमान का केंद्र, संवेग संरक्षण एवं द्रव्यमान केन्द्र। दृढ़ पिण्ड का द्रव्यमान केंद्र: एक समान छठ का द्रव्यमान केंद्र: बल आधूर्ण, कोणीय संवेग एवं उसका संरक्षण एवं अनुप्रयोग। रेखीय एवं कोणीय गति की तलाना: जड़त्व आधूर्ण, धूर्णन त्रिज्या। ज्यामितीय वस्त्रों के लिए जड़त्व आधूर्ण। समांतर और लंबवत अक्ष प्रमेय और उनके अनुप्रयोग।

**6. ग्रूत्वाकर्षण-** ग्रह गति के केप्लर के नियम। ग्रूत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। ऊर्चाई और गहराई के साथ ग्रूत्वीय त्वरण में परिवर्तन। ग्रूत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रूत्वीय विभव। पलायन वेग, उपग्रह का कक्षीय वेग। भूस्थिर उपग्रह।

**7. पदार्थ के ग्रणधर्म-** प्रत्यास्थ व्यवहार, प्रतिबल एवं विकृति में संबंध, हक का नियम, प्रत्यास्थता ग्रृणांक। द्रव स्तंभ का दाब: पास्कल का नियम और इसके अनुप्रयोग। श्यानता, स्टोक्स नियम, सीमांत वेग, रेनॉल्ड का नंबर, धारारेखीय एवं विक्षुब्ध प्रवाह। बर्नॉली प्रमेय और इसके अनुप्रयोग। पृष्ठ ऊर्जा और पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव के अनुप्रयोग (बूंद एवं बूलबूला) केशिकत्व, ऊष्मा, ताप, उष्मीय प्रसार: विशिष्ट ऊष्मा: कैलोरीमेट्री: अवस्था में परिवर्तन वृप्त ऊष्मा। ऊष्मा संचरण: चालन, संवहन और विकिरण, उष्मीय चालकता, न्यूटन का शीतलन नियम।

**8. उष्मागतिकी-** उष्मीय संतुलन और तापमान की परिभाषा (उष्मागतिकी का शून्यवां नियम) ऊष्मा, कार्य और आंतरिक ऊर्जा। उष्मागतिकी का पहला नियम। उष्मागतिकी का दूसरा नियम उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रियाएं। ऊष्मा इंजन और रेफ्रिजरेटर। कार्नो चक्र और कार्नो का प्रमेय। आदर्श गैस का स्थिति समीकरण गैस को संपीड़ित करने पर किया गया कार्य। गैसों का अण्गति सिद्धांत, स्वतंत्रता की कोटि, ऊर्जा का संवितरण और गैसों की विशिष्ट ऊष्मा में अनुप्रयोग: औसत मूक्त पथ, अवोगैट्रो संख्या।

**9. दोलन एवं तरंग-** आवर्ती गतिद: आवर्तकाल, आवृति, विस्थापन, समय के फलन के रूप में। आवर्ती फलन। सरल आवर्त गति (एसएचएम) और इसके समीकरण: कला: कमानी के दोलन। प्रत्यानयन बल एवं बल नियतांक सरल आवर्त गति में ऊर्जा - गतिज और स्थितिज ऊर्जा द्वय सरल लोलक- इसके आवर्तकाल का व्यंजक: मूक्त, प्रनोदित एवं अवमंदित दोलन, अननाद। तरंग गति। अन्दैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे, तरंग की चाल। एक प्रगामी तरंग के लिए विस्थापन संबंध। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, तरंगों का परावर्तन, तारों और पाइपों में अप्रगामी तरंगें, प्रसामान्य विधाएं और हार्मोनिक्स, विस्पंद, डोप्लर प्रभाव।

**10. स्थिर विद्युत-** विद्युत आवेश: आवेश का संरक्षण, कूलाम का नियम और उसके अनुप्रयोग, दो बिंदु आवेशों के बीच बल, बहु आवेशों के मध्य बल: आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत, आवेश का सतत वितरण। विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं विद्युत द्विधृव, विद्युत द्विधृव के कारण विद्युत क्षेत्र: एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विधृव पर बल आधूर्ण। गॉस के प्रमेय और इसके अनुप्रयोग, विद्युत विभव, विभवान्तर: विद्युत द्विधृव एवं आवेश निकाय के कारण विभव, समविभव पृष्ठ, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो बिंदु आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा। स्थिरविधृत क्षेत्र में द्विधृव। चालक एवं अचालक, चालक में मूक्त एवं बद्ध आवेश। परा विद्युत एवं विद्युत धूरण, संधारित्र एवं धारिता, संधारित्रों का संयोजन, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, माध्यम के बिना एवं माध्यम के साथ द्वय संधारित्र में संग्रहीत ऊर्जा। वान डी ग्राफ जनरेटर।

**11. धारा विद्युत-** विद्युत धारा, धात्विक चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह, अनुगमन वेग, गतिशीलता और विद्युत धारा के साथ उनके संबंध: ओहम का नियम, विद्युत प्रतिरोध, धारावृ विभव अभिलक्षण (रैखिक और गैर-रैखिक), विद्युत ऊर्जा और शक्ति, विद्युत प्रतिरोधकता और चालकता। कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ण कोड: प्रतिरोधकों के समानांतर एवं श्रेणी संयोजन: प्रतिरोध की तापमान निर्भरता। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विभवान्तर और

विद्युत वाहक बल, सेलों के समानांतर एवं श्रेणी संयोजन, किरचाफ के नियम और इसके अनुप्रयोग विभवमापी- सिद्धांत और इसके अनुप्रयोग, धारा के उष्मीय और रासायनिक प्रभाव।

12. **धारा के चूंबकीय प्रभाव एवं चूंबकत्व-** बायो-सेर्वट नियम और इसके अनुप्रयोग | एम्पियर का नियम और इसके अनुप्रयोग असीमित लंबे तार, सीधे और टोरायडल परिनालिका हेतु । लोरेन्ज बल। साइक्लोट्रॉन, सिंक्रोट्रॉन । चूंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक। दो समानांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। एकसमान चूंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आधूर्ण एवं उसके अनुप्रयोग। धारा वाही लूप चूंबकीय द्विध्रुवीय के रूप में । एक घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का चूंबकीय द्विध्रुवीय आधूर्ण । चूंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक चूंबकीय द्विध्रुवीय (दंड चूंबक) के कारण उसके अक्ष पर एवं अक्ष के लंबवत बिंदु पर । एक समान चूंबकीय क्षेत्र में एक चूंबकीय द्विध्रुवीय (दंड चूंबक) पर बल आधूर्ण : दंड चूंबक परिनालिका के रूप में । चूंबकीय बल रेखाएः पृथकी का चूंबकीय क्षेत्र और चूंबकीय तत्व । अन्, प्रति, लौह - चूंबकीय पदार्थ, उदाहरण के साथ। विद्युत चूंबक और उनकी क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक । स्थायी चूंबक ।
13. **विद्युत चूंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा-** विद्युत चूंबकीय प्रेरण; फैराडे के नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा; लेन्ज का नियम, भंवर धाराएँ। स्व-प्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण। विस्थापन धारा की आवश्यकता। प्रत्यावर्ती धारा और इसकी माप। प्रतिधात और प्रतिबाधा; LC दोलन, एलसीआर श्रेणी परिपथ, अननादय एसी परिपथ में शक्ति, जनरेटर, मोटर और ट्रांसफार्मर।

14. **प्रकाशिकी-** प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण ए दर्पण सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसके अनुप्रयोग, ऑप्टिकल फाइबर। गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन ए लैंस, पतले लैंस का सूत्र, लैंस-निर्माता का सूत्र। आवर्धन, लैंस की शक्ति, पतले लैंसों का संयोजन। एक प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का प्रकीर्णन एवं इसके अनुप्रयोग। प्रकाशिक यंत्रः मानव नेत्र, द्रष्टि के दोष और इसके संधार। सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी और उनकी आवर्धक क्षमता । तरंग प्रकाशिकी : तरंगगाग्र, हाइगन का नियम, समतल सतहों पर तरंगों का परावर्तन एवं विवर्तन। हाइगन के सिद्धांत द्वारा परावर्तन एवं अपवर्तन के नियमों का सत्यापन। व्यतिकरण, यंग का डबल स्लिट प्रयोग और फ्रिंज चौड़ाई, कला सम्बद्ध स्रोत एवं स्थाई व्यतिकरण। एकल स्लिट विवर्तन, केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई । सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। ध्रूवण, समतल ध्रूवित प्रकाशय ब्रूस्टर का नियम ए समतल ध्रूवीकृत प्रकाश और पोलोराइड के उपयोग।

15. **आधुनिक भौतिकी-** विकिरण की द्वेषी प्रकृति । प्रकाश विद्युत प्रभाव, हर्ट्ज और लेनार्ड के अवलोकन; आइस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश की कण प्रकृति। कॉम्प्टन प्रभाव, एक्स-रे का अपवर्तन ए ब्रैग का नियम, हॉल प्रभाव। कण तरंगे, कण की तरंग प्रकृति, डी ब्रोगली संबंध। डेविसन-जर्मर प्रयोग। अनिश्चितता सिद्धांत। श्रोडिंगर समीकरण। अल्फा-कण प्रकीर्णन प्रयोग; रदरफोर्ड का परमाणू मॉडलय बोहर मॉडल, ऊर्जा के स्तर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नाभिक की संरचना और आकार, पैकिंग अंश और चूंबकीय आधूर्ण, परमाणू द्रव्यमान, समस्थानिक, समभारिक; isotones । रेडियोधर्मिता-अल्फाए बीटा और गामा कण/ किरणें और उनके ग्रूप; रेडियोधर्मी क्षय नियम । द्रव्यमान - ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान क्षति; प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान के साथ इसकी निर्भरता; नाभिक का द्रव बूंद मॉडल, परमाणू विखंडन और संलयन, क्रांतिक द्रव्यमान, श्रंखला अभिक्रिया और विखंडन प्रतिक्रिया, आयनीकरण कक्ष, गीजर काउंटर और स्किंटिनेशन काउंटर, रैखिक त्वरक।

16. **इलेक्ट्रॉनिक उपकरण-** अर्धचालक; अर्धचालक डायोड- अग्र एवं पश्च अभिनती में अभिलक्षण, एक दिष्टकारी के रूप में डायोड; एलईडी, फोटोडायोड, सौर सेल, और जेनर डायोड वोल्टेज नियामक के रूप में जेनर डायोड । संधि ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की कार्यविधि, ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण; ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में (उभयनिष्ट उत्सर्जक विधा में) और दोलित्र के रूप। लोजिक गेट और इसके संयोजन। एक स्विच के रूप में ट्रांजिस्टर।

## 6. PHYSICS

1. **Physical World and Measurement-** Need for measurement: Units of measurement; systems of units; SI units, fundamental and derived units. Length, mass and time measurements; accuracy and precision of measuring instruments; errors in measurement; significant figures. dimensional analysis and its applications.

2. **Kinematics-** Frame of reference. Motion in a one ,two and three dimension: Position-time graph, speed and velocity. Uniform and non-uniform motion, average speed and instantaneous velocity. Uniformly accelerated motion, velocity-time, position-time graphs, relations for uniformly accelerated motion . Vectors :Position and displacement vectors .addition and subtraction of vectors. Relative velocity. scalar product of vectors, Vector product of vectors. Unit vector; Resolution of a vector in a plane - rectangular components. Motion in a plane. Cases of uniform velocity and uniform acceleration-projectile motion.

3. **Laws of Motion-** Intuitive concept of force. Inertia, Newton's first law of motion; momentum and Newton's second law of motion; impulse; Newton's third law of motion. Law of conservation of linear momentum and its applications. Equilibrium of concurrent forces. Types of friction, laws of friction, .Dynamics of uniform circular motion .

4. **Work, Energy and Power-** Work done by a constant force and a variable force; kinetic energy, work-energy theorem, power. Notion of potential energy, potential energy of a spring, conservative forces: conservation of mechanical

energy (kinetic and potential energies); non-conservative forces: elastic and inelastic collisions in one and two dimensions.

**5. Motion of System of Particles and Rigid Body-** Centre of mass of a two-particle system, momentum conversation and entre of mass motion. Centre of mass of a rigid body; centre of mass of uniform rod. ; moment of a force, torque, angular momentum, conservation of angular momentum with some examples. Dynamics of rigid bodies, Comparison of linear and rotational motions; moment of inertia, radius of gyration. Values of moments of inertia for geometrical objects. Parallel and perpendicular axis theorems and their applications.

**6. Gravitation-** Kepler's laws of planetary motion. The universal law of gravitation. Variation of Acceleration due to gravity with altitude ,latitude and depth. Gravitational potential energy; gravitational potential. Escape velocity. Orbital velocity of a satellite. Geo-stationary satellites.

**7. Properties of Bulk Matter-** Elastic behaviour, Stress-strain relationship, Hooke's law,modulus of lasticity .Pressure due to a fluid column; Pascal's law and its applications Viscosity, Stokes' law, terminal velocity, Reynold's number, streamline and turbulent

flow. Bernoulli's theorem and its applications. Surface energy and surface tension, application of surface tension ideas to drops, bubbles and capillary rise. Heat, temperature, thermal expansion; specific heat - calorimetry; change of state – latent heat. Heat transfer-conduction, convection and radiation, thermal conductivity, Newton's law of cooling.

**8. Thermodynamics-** Thermal equilibrium and definition of temperature (zeroth law of thermodynamics). Heat, work and internal energy. First law of thermodynamics. Second law of thermodynamics: reversible and irreversible processes. Heat engines and refrigerators.carnot cycle and carnot's theorem.

Equation of state of a perfect gas, work done on compressing a gas. Kinetic theory of gases ,degrees of freedom, law of equipartition of energy and application to specific heats of gases; concept of mean free path, Avogadro's number.

**9. Oscillations and Waves-** Periodic motion - period, frequency, displacement as a function of time. Periodic functions.Simple harmonic motion (S.H.M) and its equation; phase; oscillations of a spring– restoring force and force constant; energy in S.H.M.-kinetic and potential energies; simple pendulum–derivation of expression for its time period; free, forced and damped oscillations, resonance. Wave motion. Longitudinal and transverse waves, speed of wave motion. Displacement relation for a progressive wave. Principle of superposition of waves, reflection of waves, standing waves in strings and organ pipes, fundamental mode and harmonics, Beats, Doppler effect.

**10. Electrostatics-** Electric Charges; Conservation of charge, Coulomb's law and its application,force between two point charges, forces between multiple charges; superposition principle and continuous charge distribution. Electric field, electric field due to a point charge, electric field lines; electric dipole, electric field due to a dipole; torque on a dipole in uniform electric field. Gauss's theorem and its applications Electric potential, potential difference, electric potential due to a dipole and system of charges; equipotential surfaces, electrical potential energy of a system of two point charges and of electric dipole in an electrostatic field. Conductors and insulators, free charges and bound charges inside a conductor. Dielectrics and electric polarisation, capacitors and capacitance, combination of capacitors, capacitance of a parallel plate capacitor with and without dielectric medium between the plates, energy stored in a capacitor. Van de Graaff generator.

**11. Current Electricity-** Electric current, flow of electric charges in a metallic conductor, drift elocity, mobility and their relation with electric current; Ohm's law, electrical resistance, V-I characteristics (linear and non-linear), electrical energy and power, electrical resistivity and conductivity.Carbon resistors, colour code for carbon resistors; series and parallel combinations of resistors; temperature dependence of resistance. Internal resistance of a cell, potential difference and emf of a cell, combination of cells in series and in parallel. Kirchhoff's laws and its applications.. Potentiometer - principle and its applications Thermal and chemical effect of current.

**12. Magnetic Effects of Current and Magnetism-** Biot-Savart law and its application Ampere's law and its applications to infinitely long straight wire, straight and toroidal solenoids. Lorentz's force. Cyclotron,synchrotron. Interaction of a current-carrying conductor with magnetic field. Force between two parallel current-carrying conductors. Torque experienced by a current loop in uniform magnetic field and its application; Current loop as a magnetic dipole and its magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment of a revolving electron. Magnetic field intensity due to a magnetic dipole (bar magnet)along its axis and perpendicular to its axis. Torque on a magnetic dipole (bar magnet) in a uniform magnetic field; bar magnet as an equivalent solenoid, magnetic field lines; Earth's magnetic field and magnetic elements. Para-, dia- and ferro - magnetic substances, with examples. Electromagnets and factors affecting their strengths. Permanent magnets.

**13. Electromagnetic Induction and Alternating Currents-** Electromagnetic induction; Faraday's law, induced emf and current; Lenz's Law, Eddy currents. Self and mutual inductance. Need for displacement current. Alternating currents

and its measurement reactance and impedance; LC oscillations, LCR series circuit, resonance; power in AC circuits., generator , motors and transformer.

**14. Optics-** Reflection of light, spherical mirrors, mirror formula. Refraction of light, total internal reflection and its applications, optical fibres, refraction at spherical surfaces, lenses, thin lens formula, lens-maker's formula. Magnification, power of a lens, combination of thin lenses in contact. Refraction and dispersion of light through a prism. Scattering of light and its application.Optical instruments: Human eye-eye defects and its correction. Microscopes and astronomical telescopes and their magnifying powers. Wave optics: wave front and Huygens' principle, reflection and refraction of plane wave at a plane surface using wave fronts. Proof of laws of reflection and refraction using Huygens' principle. Interference, Young's double slit experiment and expression for fringe width, coherent sources and sustained interference of light. Diffraction due to a single slit, width of central maximum. Resolving power of microscopes and astronomical telescopes. Polarisation, plane polarised light; Brewster's law, uses of plane polarised light and Polaroids.

**15. Modern Physics-** Dual nature of radiation. Photoelectric effect, Hertz and Lenard's observations; Einstein's photoelectric equation-particle nature of light. Compton effect, deffraction of X- rays ,Bragg's law ,Hall effect. Matter waves-wave nature of particles, de Broglie relation. Davisson-Germer experiment. Uncertainty principal. Schrodinger's equation. Alpha-particle scattering experiment; Rutherford's model of atom; Bohr model, energy levels, hydrogen spectrum. Composition and size of nucleus, packing fraction and magnetic moment, atomic masses, isotopes, isobars; isotones. Radioactivity-alpha, beta and gamma particles/rays and their properties; radioactive decay law. Mass-energy relation, mass defect; binding energy per nucleon and its variation with mass number; liquid drop model of nucleus, nuclear fission and fusion., critical mass ,chain reaction and fission reaction, ionization chamber, Geiger counter and scintillation counter, linear accelerator.

**16. Electronic Devices-** Semiconductors; semiconductor diode – I-V characteristics in forward and reverse bias, diode as a rectifier; I-V characteristics of LED, photodiode, solar cell, and Zener diode; Zener diode as a voltage regulator. Junction transistor, transistor action, characteristics of a transistor; transistor as an amplifier (common emitter configuration) and oscillator. Logic gates and its combination. Transistor as a switch.

## 7. जीव विज्ञान

- जैव जगत में विविधता** - सजीव क्या है; जैव विविधता; वर्गीकरण की आवश्यकता है; जीवन के तीन डोमेन; वर्गीकरण और सिस्टमैटिक्स; प्रजातियों और टैक्सोनॉमिकल पदानुक्रम की अवधारणा; द्विपद नामकरण; वर्गीकरण के अद्ययन के लिए उपकरण- संग्रहालय, चिडियाघर, हरबेरियम, वनस्पति उद्यान। पांच जगत वर्गीकरण; मोनेरा की मुख्य विशेषताएं और वर्गीकरण; प्रमुख समूहों में प्रोटिस्टा और कवक लाइकेन; वायरस और वायरॉयड। मुख्य समूहों में पौधों की मुख्य विशेषताएं और वर्गीकरण- शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म (तीन से पांच प्रमुख और विशिष्ट विशेषताएं और प्रत्येक श्रेणी के कम से कम दो उदाहरण) एंजियोस्पर्म- वर्ग, विशेषताओं और उदाहरणों तक वर्गीकरण। जीवधारियों की मुख्य विशेषताएं और वर्गीकरण- वर्ग स्तर तक।
- जीवों का संरचनात्मक संगठन-** आकारिकी ऊतकों; एनाटॉमी और फूलों के पौधों के विभिन्न हिस्सों के कार्यरूप: जड़, तना, पत्ती, फूल - साइमोज और रेसीमोज, फूल, फल और बीज पशु ऊतक; एक कीट (तिलचट्टा) के विभिन्न प्रणालियों (पाचन, परिसंचरण, श्वसन, तंत्रिका और प्रजनन) के रूपरेखा, शरीर रचना विज्ञान और कार्य।
- कोषिका संरचना और कार्य-** जीवन सिद्धांत और कोशिका जीवन की मूल इकाई के रूप में; प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका का ढांचा; जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका; कोशिका आवरण, कोषिका डिल्ली, कोशिका दीवार; कोशिकाग- संरचना, एंडोमेम्ब्रेन प्रणाली- एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स; माइटोकॉन्फ्रिया, रिबोसोम, प्लास्टिङ्स, माइक्रोबॉडीज; साइटोस्कलेटन, सिलिया, फ्लैगेला, सेंट्रोल (अल्ट्रा स्ट्रक्चर और फंक्शन); न्यूक्लियस परमाणु डिल्ली, क्रोमैटिन, न्यूक्लिओलस। जीवित कोशिकाओं के रासायनिक घटक: बायोमालिक्यूल-संरचना और प्रोटीन, कार्बोइड्रेट्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड का कार्य; एंजाइमों, गुणों, एंजाइम क्रिया कारक एंजाइमों को प्रभावित करते हैं। सेल विभाजनर: सेल चक्र, मार्फिटोसिस, मेयोसिस और उनका महत्व।
- पादप कार्यकी-** पौधों में परिवहन: पानी, गैसों और पोषक तत्वों का संवहन; कोशिका परिवहन के लिए कोषिका-डिफ्यूजन, प्रसारित प्रसार, सक्रिय परिवहन; संयंत्र - जल संबंध- अन्तः चूसण, जल क्षमता, परासरण, प्लास्मोलाइसिस; पानी की लंबी दूरी की परिवहन- अवशोषण, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, प्रत्यारोपण खींच, रुट दबाव और बिन्दु स्त्राव प्रत्यारोपण - स्टोमेटा का खुलना और बंद होना अपशिष्ट और खनिज पोषक तत्वों का स्थानांतरण- भोजन, फ्लोयम परिवहन, मास प्रवाह परिकल्पना का परिवहनय गैसों का अंतर (संक्षिप्त उल्लेख)। खनिज पोषण: आवश्यक खनिज, मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्व और उनकी भूमिका; कमी के लक्षण; खनिज

विषाक्तता; खनिज पोषण का अध्ययन करने के लिए एक विधि के रूप में हाइड्रोपोनिक्स का प्राथमिक विचार; नाइट्रोजन चयापचय - नाइट्रोजन चक्र, जैविक नाइट्रोजन स्थिरिकरण।

**प्रकाश संश्लेषण:** ऑटोट्रोफिक पोषण के साधन के रूप में प्रकाश संश्लेषण; प्रकाश संश्लेषण कहां होता है; प्रकाश संश्लेषण (प्राथमिक विचार) में कितने वर्णक शामिल हैं; प्रकाश संश्लेषण के फोटोकैमिकल और जैव संश्लेषक चरण; चक्रीय और गैर चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन; Chemiosmotic परिकल्पना; photorespiration; सी 3 और सी 4 मार्ग; प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। **श्वसन:** गैसों का आदान-प्रदान; सेलुलर श्वसन - ग्लाइकोलिसिस, किण्वन (एनारोबिक), टीसीए चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली (एरोबिक), ऊर्जा संबंध - उत्पन्न एटीपी अणुओं की संख्या; एम्फिबॉलिक मार्ग; श्वसन अनपात। पौधे की वृद्धि और विकास: बीज अंकुरण; पौधों के विकास और पौधों की वृद्धि दर के चरण; विकास की शर्तें; भिन्नता, dedifferentiation और redifferentiation; एक पौधे सेल में विकास प्रक्रिया का अनुक्रम; ग्रोथ नियामक-ऑक्सिसन, जिब्बेरेलीन, साइटोकिनिन, एथिलीन, एबीए; बीज निष्क्रियता; वसंतीकरण एवं दीप्तिकालिता।

5. **मानव कार्यकी-** पाचन और अवशोषण: आहार नाल और पाचन ग्रंथियां; पाचन एंजाइमों और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन की भूमिका; पेरिस्टालिसिस, पाचन, अवशोषण और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का आकलन; प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का कैलोरिफिक मूल्य बहिक्षेपण पौष्टिक और पाचन विकार- पीईएम, अपचन, कब्ज, उल्टी, पीलिया, दस्त।

**श्वास और श्वसन:** जानवरों में श्वसन अंग मनुष्यों में श्वसन प्रणाली; सांस लेने की तंत्र और मनुष्यों में इसका विनियमन. गैसों का आदान-प्रदान, गैसों का परिवहन और श्वसन के विनियमन, श्वसन मात्रा; श्वसन-अस्थमा, एम्फसीमा, व्यावसायिक श्वसन संबंधी विकार से संबंधित विकार।

**शारीरिक तरल पदार्थ और परिसंचरण:** रक्त, रक्त समूह, रक्त की जमावट की संरचना; लिम्फ और उसके कार्य की संरचना; मानव परिसंचरण तंत्र- मानव हृदय और रक्त वाहिकाओं का ढांचा; कार्डियक चक्र, हृदय उत्पादन, ईसीजी; डबल परिसंचरण; कार्डियक गतिविधि का विनियमन; परिसंचरण तंत्र के विकार-उच्च रक्तचाप, कोरोनरी धमनी रोग, एंजिना पिक्टोरिस, हृदयग्राह।

**उत्सर्जित उत्पाद और उनके उन्मूलन:** उत्सर्जन के मोड़- अमोनिओटेलिज्म, यूरोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म; मानव उत्सर्जन प्रणाली-संरचना और फक्शन; मूत्र गठन, ओसमोराग्यूलेशन; गुर्दे की क्रिया का विनियमन- रेनिन-एंजियोटेसिन, एट्रियल नाट्यूरेटिक फैक्टर, एडीएच और मधुमेह इंसिपिडस; विसर्जन में अन्य अंगों की भूमिका; विकार- यूरेमिया, रिनल फेल्यूर, रेनल कैलकली, नेफ्राइटिसय डायलिसिस और कृत्रिम किडनी।

**प्रचलन एवं गति:** प्रचलन के प्रकार- सिलियरी, फ्लैजैलर, पेशीय कंकाल मांसपेशियों - संकुचनशील प्रोटीन और मांसपेशी संकुचन; कंकाल प्रणाली और इसके कार्यों जोड़; मांसपेशी और कंकाल प्रणाली के विकार- मायास्थेनिया ग्रेविस, टेटनी, मांसपेशी डिस्ट्रॉफी, संधिशोथ, ओस्टियोपोरोसिस, गौट।

**तंत्रिका नियंत्रण और समन्वय:** न्यूरॉन और नसों; मनुष्यों में तंत्रिका तंत्र- केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और आंत तंत्रिका तंत्र; तंत्रिका आवेग की पीढ़ी और चालन; जवाबी कारवाई; संवेदी धारणा; इंद्रियों; आंख और कान की प्राथमिक संरचना और कार्य।

**रासायनिक समन्वय और विनियमन:** एंडोक्राइन ग्रंथियां और हार्मोन; मानव अंतःस्रावी तंत्र हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पाइनल, थायराइड, पैराथीरॉयड, एड्रेनल, पैनक्रियास, गोनाइस; हार्मोन एक्शन (प्राथमिक विचार) का तंत्र; संदेशवाहकों और नियामकों, हाइपो और अति सक्रियता और संबंधित विकारों के रूप में हार्मोन की भूमिका (सामान्य विकार जैसे बौनेवाद, एक्रोमेगाली, क्रेटिनिज्म, गोइटर, एक्सोप्थाल्मिक गोइटर, मधुमेह, एडिसन रोग)।

6. **प्रजनन- जीवों में प्रजनन:** प्रजनन, प्रजातियों की निरंतरता के लिए सभी जीवों की एक विशेषता विशेषता; प्रजनन के मोड़ - अलेंगिक और लैंगिक प्रजनन; मोड़- बाइनरी विखंडन, स्पोर्लेशन, उभरते हुए, रत्न, विखंडन; पौधों में कायिक प्रवर्धन। आवृत्तबीजी पौधों में लैंगिक प्रजनन; फूल संरचना; नर और मादा गैमेटोफाइट्स का विकास; परागण-प्रकार, माध्यम और उदाहरण; आउटब्रिडिंग डिवाइस; परागकण पिस्टिल इंटरेक्शन; दोहरा निषेचन; पोस्ट निषेचन परिवर्तन - एंडोस्पर्म और भ्रूण का विकास, बीज का विकास और फल का महत्वय विशेष मोड़-एपोमिक्सिस, अनिषेकफलन बहुभुणता बीज और फल गठन का महत्व।

**मानव प्रजनन:** नर और मादा प्रजनन प्रणाली; वृषण और अंडाशय की सूक्ष्म शरीर रचनाय युग्मक जनन- शुक्राणुजनन और अंडाणु जनन मासिक धर्म; निषेचन, प्रत्यारोपण तक भ्रूण विकास; गर्भावस्था और प्लेसेंटा गठन (प्राथमिक विचार); विभाजन (प्राथमिक विचारद्वा); स्तनपान (प्राथमिक विचार)। प्रजनन स्वास्थ्य; प्रजनन स्वास्थ्य और यौन संक्रमित बीमारियों (एसटीडी) की रोकथाम की आवश्यकता; जन्म नियंत्रण- आवश्यकता और तरीके, गर्भनिरोधक और गर्भावस्था के चिकित्सा समाप्ति (एमटीपीट); उल्ववेधनय बांझपन और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकियों - आईवीएफए जिफ्ट, गिफ्ट, आईयूटी, टीईटी, भ्रूण संस्कृति (सामान्य जागरूकता के लिए प्राथमिक विचार) पुनरुत्पादन पर उम्र के शिथिल प्रभाव।

7. **आनुवंशिकी और विकास-** आनुवंशिकता और भिन्नता; मेंडेलियन अनुवंशिकता; मेंडेलिज्म से विचलन- अपूर्ण प्रभुत्व, सह-प्रभुत्व, एकाधिक समूह और रक्त समूहों के अनुवंशिकता, Pleiotropy; पॉलीजेनिक अनुवंशिकता का

प्राथमिक विचार; अनुवांशिकता का क्रोमोसोम सिद्धांत; क्रोमोसोम और जीन; लिंग निर्धारण- मनुष्यों, पक्षियों, मधुमक्खी मधुमक्खी में; लिंकेज और जीन विनिमय; सेक्स लिंकड अनुवांशिकता- हैमोफिलिया, रंग अंधापनय मनुष्यों में मेन्डेलियन विकार- थैलेसेमिया मनुष्यों में क्रोमोसोमल विकार; डाउन सिंड्रोम, टर्नर और क्लाइनफेलटर के सिंड्रोम। वंशावली विश्लेषण।

**आनुवांशिकी का आण्विक आधार:** आनुवांशिक सामग्री के रूप में अनुवांशिक सामग्री और डीएनए के लिए खोजें; डीएनए और आरएनए का ढांचा; डीएनए पैकेजिंग; डी एन ए की नकल; केंद्रीय हठधर्मिता; ट्रांसक्रिप्शन; जेनेटिक कोड; अनुवाद; जीन अभिव्यक्ति और विनियमन. एलएसी ऑपरॉन; जीनोम और मानव जीनोम परियोजना; डीएनए उंगली मुद्रण जीन मैपिंग।

**विकास:** जीवन की उत्पत्तिय जैविक विकास के लिए जैविक विकास और साक्ष्य (पैलेंटोटोलॉजिकल, तुलनात्मक शरीर रचना, भ्रूणविज्ञान और आण्विक सबूत) डार्विन का योगदान, विकास का आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत; विकास की तंत्र- विविधता (उत्परिवर्तन और पुनर्मूल्यांकन) और उदाहरण के साथ प्राकृतिक चयन; प्राकृतिक चयन के प्रकार; जीन प्रवाह और आनुवांशिक ड्रिफ्टट्य हार्डी- वेनर्बर्ग का सिद्धांत; अनुकूली विकिरण; मानव विकास।

**8. जीवविज्ञान और मानव कल्याण-** स्वास्थ्य और रोगर: रोगजनक; परजीवी मानव रोगों मलेरिया, फिलैरिएसिस, एस्कैरिएसिस, टायफाइड, निमोनिया, सर्दी, एमीबायोसिस रिंग वर्म का कारण बनता है; इम्यूनोलॉजी-टीकों की बुनियादी अवधारणाएं; केंसर, एचआईवी और एड्स, किशोरावस्था, दवा और शराब का दुरुपयोग। प्रतिरक्षा प्रणाली के कोशिकाएं और उनकी भेदभाव, संरचना और एंटीजन-एंटीबॉडी इंटरैक्शन। ऑटो प्रतिरक्षा एलर्जी।

**खाद्य उत्पादन में सुधार-** पादप प्रजनन, ऊतक संवर्धन, एकल कोशिका प्रोटीन, बायोफोर्टिफिकेशन; एपिकल्चर और पशुपालन।

**मानव कल्याण में सूक्ष्मजीवर:** घरेलू खाद्य प्रोसेसिंग, औद्योगिक उत्पादन, सीवेज उपचार, और एसटीपी गंगा यमुना एकशन प्लान, ऊर्जा उत्पादन और बायोकंट्रोल एजेंट और जैव उर्वरक के रूप में।

**9. बायोटेक्नोलॉजी और इसके अनुपयोग-** जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और प्रक्रियाएँ: जेनेटिक इंजीनियरिंग (रीकॉम्बीनेट डीएनए प्रौद्योगिकी)। स्वास्थ्य और कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग: मानव इंसुलिन और टीका उत्पादन, जीन थेरेपी आण्विक निदान, सीरम और मूत्र विश्लेषण, पीसीआर, एलिसा आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव-बीटी फसलें; ट्रांसजेनिक पशु; बायोसेफटी मुद्दे- बायोपाइरेसी और बायोपेटेन्ट।

**10. पारिस्थितिकी और पर्यावरण-** जीव और पर्यावरण: आवास और आला; जनसंख्या और पारिस्थितिक अनुकूलनय जनसंख्या बातचीत-पारस्परिकता, प्रतिस्पर्धा, भविष्यवाणी, परजीवीवाद; जनसंख्या गुण-वृद्धि, जन्म दर और मृत्यु दर, आयु वितरण, लोजेस्टिक वक्र, डार्विनियन फिटनेस।

**पारिस्थितिक तंत्र:** पैटर्न, घटक; उत्पादकता और अपघटन; ऊर्जा प्रवाह; संख्या, बायोमास, ऊर्जा के पिरामिड; पोषक तत्व चक्र (कार्बन और फॉस्फोरस); पारिस्थितिकीय उत्तराधिकार; पारिस्थितिकीय सेवाएं- कार्बन निर्धारण, परागण, ऑक्सीजन रिहाई।

**जैव विविधता और इसके संरक्षण:** जैव विविधता की अवधारणा; जैव विविधता के पैटर्न; जैव विविधता का महत्व; जैव विविधता के नुकसान; जैवविविधता संरक्षण; हॉटस्पॉट, लुप्तप्राय जीव, विलुप्त होने, लाल डेटा बुक, जीवमंडल भंडार, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य।

**पर्यावरण संबंधी मुद्दे:** वायु प्रदूषण और इसका नियंत्रण; जल प्रदूषण और इसका नियंत्रण; कृषि रसायन और उनके प्रभाव; ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन; ग्रीनहाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग; ओजोन का क्रमिक ह्लास; वनों की कटाई; पर्यावरणीय मुद्दे।

## 7. BIOLOGY

**1. Diversity in Living World-** What is living?; Biodiversity; Need for classification; Three domain of life; Taxonomy & Systematics; Concept of species and taxonomical hierarchy; Binomial nomenclature; Tools for study of Taxonomy- Museums, Zoos, Herbaria, Botanical gardens. Five kingdom classification; Salient features and classification of Monera; Protista and Fungi into major groups; Lichens; Viruses and Viroids. Salient features and classification of plants into major groups- Algae, Bryophytes, Pteridophytes, Gymnosperm and Angiosperm (three to five salient and distinguishing features and at least two examples of each category); Angiosperms- classification up to class, characteristic features and examples. Salient features and classification of animals- non chordate up to phyla level and chordate up to classes level.

**2. Structural Organisation in Animals and Plants-** Morphology and modifications; Tissues; Anatomy and functions of different parts of flowering plants: Root, stem, leaf, inflorescence- cymose and racemose, flower, fruit and seed. Animal tissues; Morphology, anatomy and functions of different systems (digestive, circulatory, respiratory, nervous and reproductive) of an insect (cockroach).

**3. Cell Structure and Function-** Cell theory and cell as the basic unit of life; Structure of prokaryotic and eukaryotic cell; Plant cell and animal cell; Cell envelope, cell membrane, cell wall; Cell organelles— structure and function; Endomembrane system- endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosomes, vacuoles; mitochondria, ribosomes, plastids, microbodies; Cytoskeleton, cilia, flagella, centrioles (ultra structure and function); Nucleus—nuclear membrane, chromatin, nucleolus. Chemical constituents of living cells: Biomolecules—structure and function of proteins, carbohydrates, lipid, nucleic acids; Enzymes—types, properties, enzyme action factors affecting enzymes.

Cell division : Cell cycle, mitosis, meiosis and their significance.

**4. Plant Physiology-** Transport in plants: Movement of water, gases and nutrients; Cell to cell transport— Diffusion, facilitated diffusion, active transport; Plant – water relations— Imbibition, water potential, osmosis, plasmolysis; Long distance transport of water— Absorption, apoplast, symplast, transpiration pull, root pressure and guttation; Transpiration— Opening and closing of stomata; Uptake and translocation of mineral nutrients— Transport of food, phloem transport, Mass flow hypothesis; Diffusion of gases. Mineral nutrition: Essential minerals, macro and micronutrients and their role; Deficiency symptoms; Mineral toxicity; Elementary idea of Hydroponics as a method to study mineral nutrition; Nitrogen metabolism – Nitrogen cycle, biological nitrogen fixation.

**Photosynthesis:** Photosynthesis as a means of Autotrophic nutrition; Where does photosynthesis take place; How many pigments are involved in Photosynthesis (Elementary idea); Photochemical and biosynthetic phases of photosynthesis; Cyclic and non cyclic photophosphorylation; Chemiosmotic hypothesis; Photorespiration; C<sub>3</sub> and C<sub>4</sub> pathways; Factors affecting photosynthesis. Respiration: Exchange of gases; Cellular respiration – glycolysis, fermentation (anaerobic), TCA cycle and electron transport system (aerobic); Energy relations – Number of ATP molecules generated; Amphibolic pathways; Respiratory quotient. Plant growth and development: Seed germination; Phases of plant growth and plant growth rate; Conditions of growth; Differentiation, dedifferentiation and redifferentiation; Sequence of developmental process in a plant cell; Growth regulators—auxin, gibberellin, cytokinin, ethylene, ABA; Seed dormancy; Vernalisation; Photoperiodism.

## **5. Human Physiology-**

**Digestion and absorption:** Alimentary canal and digestive glands; Role of digestive enzymes and gastrointestinal hormones; Peristalsis, digestion, absorption and assimilation of proteins, carbohydrates and fats; Calorific value of proteins, carbohydrates and fats Egestion; Nutritional and digestive disorders— PEM, indigestion, constipation, vomiting, jaundice, diarrhea. Breathing and Respiration: Respiratory organs in animals

**Respiratory system in humans:** Mechanism of breathing and its regulation in humans— Exchange of gases, transport of gases and regulation of respiration, Respiratory volumes; Disorders related to respiration-Asthma, Emphysema, Occupational respiratory disorders.

**Body fluids and circulation:** Composition of blood, blood groups, coagulation of blood; Composition of lymph and its function;

**Human circulatory system—** Structure of human heart and blood vessels; Cardiac cycle, cardiac output, ECG; Double circulation; Regulation of cardiac activity; Disorders of circulatory system-Hypertension, Coronary artery disease, Angina pectoris, Heart failure.

**Excretory products and their elimination:** Modes of excretion— Ammonotelism, ureotelism, uricotelism; Human excretory system—structure and function; Urine formation, Osmoregulation; Regulation of kidney function— Renin-angiotensin, Atrial Natriuretic Factor, ADH and Diabetes insipidus; Role of other organs in excretion; Disorders-Uraemia, Renal failure, Renal calculi, Nephritis; Dialysis and artificial kidney.

**Locomotion and Movement:** Types of movement— ciliary, flagellar, muscular; Skeletal muscle – contractile proteins and muscle contraction; Skeletal system and its functions Joints; Disorders of muscular and skeletal system- Myasthenia gravis, Tetany, Muscular dystrophy, Arthritis, Osteoporosis, Gout. Neural control and coordination: Neuron and nerves;

**Nervous system in humans—** central nervous system, peripheral nervous system and visceral nervous system; Generation and conduction of nerve impulse; Reflex action; Sensory perception; Sense organs; Elementary structure and function of eye and ear. **Chemical coordination and regulation:** Endocrine glands and hormones; Human endocrine systemHypothalamus, Pituitary, Pineal, Thyroid, Parathyroid, Adrenal, Pancreas, Gonads; Mechanism of hormone action (Elementary Idea); Role of hormones as messengers and regulators, Hypo-and hyperactivity and related disorders (Common disorders e.g. Dwarfism, Acromegaly, Cretinism, goiter, exophthalmic goiter, diabetes, Addison's disease).

## **6. Reproduction-**

**Reproduction in organisms:** Reproduction, a characteristic feature of all organisms for continuation of species; Modes of reproduction – Asexual and sexual; Asexual reproduction; Modes- Binary fission, sporulation, budding, gemmule,

fragmentation; vegetative propagation in plants. Sexual reproduction in flowering plants: Flower structure; Development of male and female gametophytes; Pollination—types, agencies and examples; Outbreeding devices; Pollen-Pistil interaction; Double fertilization; Post fertilization events—Development of endosperm and embryo, Development of seed and formation of fruit; Special modes—apomixis, parthenocarpy, polyembryony; Significance of seed and fruit formation.

**Human Reproduction:** Male and female reproductive systems; Microscopic anatomy of testis and ovary; Gametogenesis- spermatogenesis & oogenesis; Menstrual cycle; Fertilisation, embryo development upto blastocyst formation, implantation; Pregnancy and placenta formation (Elementary idea); Parturition (Elementary idea); Lactation (Elementary idea). Reproductive health: Need for reproductive health and prevention of sexually transmitted diseases (STD); Birth control- Need and Methods, Contraception and Medical Termination of Pregnancy (MTP); Amniocentesis; Infertility and assisted reproductive technologies – IVF, ZIFT, GIFT, IUT, TET, Embryo culture (Elementary idea for general awareness) senescence impact of age on reproduction.

## 7. Genetics and Evolution-

**Heredity and variation:** Mendelian Inheritance; Deviations from Mendelism—Incomplete dominance, Co-dominance, Multiple alleles and Inheritance of blood groups, Pleiotropy; Elementary idea of polygenic inheritance; Chromosome theory of inheritance; Chromosomes and genes; Sex determination—In humans, birds, honey bee; Linkage and crossing over; Sex linked inheritance- Haemophilia, Colour blindness; Mendelian disorders in humans—Thalassemia; Chromosomal disorders in humans; Down's syndrome, Turner's and Klinefelter's syndromes. Pedigree analysis.

**Molecular Basis of Inheritance:** Search for genetic material and DNA as genetic material; Structure of DNA and RNA; DNA packaging; DNA replication; Central dogma; Transcription, genetic code, translation; Gene expression and regulation—Lac Operon; Genome and human genome project; DNA finger printing Gene mapping.

**Evolution:** Origin of life; Biological evolution and evidences for biological evolution (Paleontological, comparative anatomy, embryology and molecular evidence); Darwin's contribution, Modern Synthetic theory of Evolution; Mechanism of evolution— Variation (Mutation and Recombination) and Natural Selection with examples, types of natural selection; Gene flow and genetic drift; Hardy- Weinberg's principle; Adaptive Radiation; Human evolution.

## 8. Biology and Human Welfare-

**Health and Disease:** Pathogens; parasites causing human diseases (Malaria, Filariasis, Ascariasis, Typhoid, Pneumonia, common cold, amoebiasis, ring worm); **Basic concepts of immunology:** vaccines; Cancer, HIV and AIDS; Adolescence, drug and alcohol abuse. Cells of the immune system and their differentiation, structure and functions of antibodies , antigen –antibody interactions. Auto immunity Allergies.

**Improvement in food production:** Plant breeding, tissue culture, single cell protein, **Biofortification;** Apiculture and Animal husbandry.

**Microbes in human welfare:** In household food processing, industrial production, sewage treatment, and STP Ganga Yamuna action Plan, energy generation and as biocontrol agents and biofertilizers.

**9. Biotechnology and Its Applications-** Principles and process of Biotechnology: Genetic engineering (Recombinant DNA technology). Application of Biotechnology in health and agriculture: Human insulin and vaccine production, gene therapy; molecular diagnosis, serum and urine analysis, PCR , ELISA Genetically modified organisms- Bt crops; Transgenic Animals; Biosafety issues—Biopiracy and Biopatents.

**10. Ecology and environment- Organisms and environment:** Habitat and niche; Population and ecological adaptations; Population interactions—mutualism, competition, predation, parasitism; Population attributes—growth, birth rate and death rate, age distribution, logistic curves, darwinian fitness.

**Ecosystems:** Patterns, components; productivity and decomposition; Energy flow; Pyramids of number, biomass, energy; Nutrient cycling (carbon and phosphorous); Ecological succession; Ecological Services— Carbon fixation, pollination, oxygen release.

**Biodiversity and its conservation:** Concept of Biodiversity; Patterns of Biodiversity; Importance of Biodiversity; Loss of Biodiversity; Biodiversity conservation; Hotspots, endangered organisms, extinction, Red Data Book, biosphere reserves, National parks and sanctuaries.

**Environmental issues:** Air pollution and its control; Water pollution and its control; Agrochemicals and their effects; Solid waste management; Radioactive waste management; Greenhouse effect and global warming; Ozone depletion; Deforestation; environmental issues.

## 8. रसायन शास्त्र

- 1. रसायन शास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएँ :** रसायन शास्त्र के क्षेत्र- पदार्थ की प्रकृति के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण- पदार्थों की अवस्था, तत्वों, परमाणुओं और अणुओं की अवधारणाएं, द्रव्य के गुणधर्म और उसका मापन, मात्रकों की अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति (SI पद्धति), मापन में अनिश्चितता, विमीय विश्लेषण, रासायनिक संयोजन के नियम,

- परमाणु द्रव्यमान और आणिक द्रव्यमान, मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान, प्रतिशत संघटन, मुलानुपाती और आणिक द्रव्यमान, तुल्यांकी भार, सीमांत अभिकर्मक की संकल्पना।
- 2. द्रव्य की अवस्थाएँ-** ठोस, द्रव और गैस, द्रव्य की तीन अवस्था, अंतरा आणिक बलों के प्रकार, आदर्श गैस व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियम। बॉयल का नियम, चाल्स का नियम, गै-लुसेक का नियम, आवोगाद्रो नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, आदर्श गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, आणिक गति पर मैक्सवेल बोल्ट्ज़मान वितरण नियम, वास्तविक गैसें- एवं आदर्श व्यवहार से विचलन, वांडरवाल समीकरण। द्रव्य एवं उनके गुण जैसे- वाष्प दाब, व्यानता और पृष्ठ तनाव। ठोसः ठोसों का वर्गीकरण, जालक के मौलिक प्रकार, द्रवि और त्रि आयामी जालक के प्रकार, सरल क्रिस्टलीय संरचनाएं अलग-अलग तापमान पर क्रिस्टल संरचना का परिवर्तन (रूपांतरण), ब्रैग का नियम, ठोसों में घनत्व, ऊर्जा बैंड, बैंड अंतराल, अर्धचालक, चुंबकीय और डाइइलेक्ट्रिक गुण, ठोसों में स्ट्राइकियामेट्रिक एवं नॉन-स्ट्राइकियामेट्रिक दोष।
  - 3. परमाणु संरचना-** परमाणु संरचना (क्लासिकल थ्योरी), डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, बोहर का परमाणु मॉडल, परमाणु संरचना (आधुनिक सिद्धांत), लुई दे ब्रॉग्ली संबंध, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्लासिकल तरंग समीकरण, श्रोडिंजर का तरंग समीकरण, संभाव्यता वितरण वक्र, क्वांटम संख्या, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, ऑफबाऊ का नियम एवं हुंड का अधिकतम बहलता का नियम।
  - 4. साम्यावस्था-** उत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ, साम्यावस्था के मानदंड, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, साम्य स्थिरांक, जब और जब में संबंध, ली बीतलिये का सिद्धांत, आयनिक साम्यावस्था, औस्टवाल्ड के तनुता का नियम, अम्लीय व क्षारीय विलयन, विलयन में आयनिक साम्यवस्था, समआयन प्रभाव एवं इनके गुणात्मक विश्लेषण व उपयोग, अम्ल एवं क्षार, ब्रॉस्टेड- लोरी सिद्धांत, अम्ल और क्षार की लुईस अवधारणा, अम्ल और क्षार की सापेक्ष प्रबलता, सामर्थ्य उनके मात्रात्मक अनुमान, बफर विलयन और इसका उपयोग, चम् का निर्धारण, सूचकों के सिद्धांत, चालकीय अनुमापन, विलेयतागुणनकल एवं जल अपघटन।
  - 5. सतह रसायन-** अधिषोषण, अवशोषण, षोषण, भौतिक अधिषोषण, रासायनिक अधिषोषण, समतापीय (फॉयन्डलिक लैंगमुझर) अधिषोषण के उपयोग, उत्प्रेरण के प्रकार, उत्प्रेरण के सिद्धांत, कोलाइडों का वर्गीकरण, कोलाइडी विलियन बनाने की विषिष्ट विधियाँ (लियोफोबिक और लियोफिलिक), कोलाइडी विलियनों के गुण : विधुतकण संचलन, टिप्पडल प्रभाव, ब्राउनी गति, कोलाइडस का अवक्षेपण, हार्डी शुल्जे का नियम, बहुआणिक और वृहदाणिव कोलाइड, पायस और जैल।
  - 6. रासायनिक बलगतिकी-** अभिक्रिया दर के सिद्धांत, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, आणिकता और अभिक्रिया की कोटी, तीव्रगामी अभिक्रियाएँ, लुमेनसेंस और ऊर्जा हस्तांतरण अभिक्रियाएं, अभिक्रिया तंत्र (सरल और जटिल अभिक्रियाएँ), सक्रियण ऊर्जा, अरहीनियस समीकरण। अभिक्रिया का अर्द्ध-आयुकाल।
  - 7. अपचयोपचय अभिक्रियाएँ एवं विधुत रसायन-** अपचयोपचय अभिक्रियाएँ एवं इनके उपयोग: ऑक्सीकरण संख्या, प्रबल और दुर्बल विद्युतअपघट्य, गतिविधि गुणांक, चालन और चालकता, कोलराष का नियम, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, आणिक चालकता एवं तूल्यांकी चालकता, विधुत अपघटन के गुणात्मक विष्लेषण और मात्रात्मक पक्ष, विधुत रासायनिक सेल और विधुत अपघटनीय सेल, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव, विधुत रासायनिक श्रेणी और इसके अनुप्रयोग, नर्नस्ट समीकरण और इसके अनुप्रयोग, साम्य स्थिरांक एवं सेल का इएमएफ(EMF), ईधन सेल एवं संक्षारण।
  - 8. विलयन-** विलयन और इसके प्रकार, विलयन की सांदर्भता को व्यक्त करना, विलेयता, द्रव (ताप और दाब) में ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, द्रव का वाष्प दाब, वाष्पषील और अवाष्पषील विलय के लिए रातल्ट का नियम, आदर्श और अनादर्श विलयन, अणुसंख्यक गुणाधर्म, असामान्य आणिक द्रव्यमान और वाण्ट हॉफ गुणांक।
  - 9. रासायनिक आबंधन और आणिक संरचना-** संयोजी इलेक्ट्रॉन और लुईस संरचनाएँ, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, बंध पैरामीटर, उपसहसंयोजी बंध, ध्रुवीयता और द्रवि-ध्रुवीय आधूर्ण, संयोजकता आबंध सिद्धांत का मात्रात्मक विचार, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत (VSEPR), आणिक कक्षक सिद्धांत (LCAO), संकरण की अवधारणा, एस,पी,डी आर्बिटल्स (s, p, d orbitals), हाइड्रोजन बंध, अनुनाद।
  - 10. उष्मागतिकी-** तंत्र के मैक्रोस्कोपिक गुण, तंत्र और वातावरण के बीच ऊर्जा का हस्तांतरण, प्रावस्था सक्रमण, प्रावस्था नियम और प्रावस्था आरेख, उष्मागतिकी का प्रथम, दूसरा व तीसरा नियम, अभिक्रिया की आंतरिक ऊर्जा और एन्थैल्पी उनके माप और अनुप्रयोग, स्वतः प्रवर्तिता, एण्टरेपी एवं स्वतः प्रवर्तिता, हेल्महोल्ट्ज और गिब्ज की मुक्त ऊर्जा, विधुत रसायन सेल की उष्मागतिकी।
  - 11. तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणों में आवर्तिता-** वर्गीकरण का महत्व, आवर्त सारणी के विकास का संक्षिप्त इतिहास, आधुनिक आवर्त नियम और आवर्त सारणी का वर्तमान रूप, आवर्त नियम, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले ( $100>Z$ ) के तत्वों का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम, एस. पी. डी. एफ-ब्लॉक (s, p, d orbitals) के तत्व और उनकी विशेषताएं, एस. पी. डी. एफ-ब्लॉक (s, p, d orbitals) के तहत तत्वों का वर्गीकरण और उनके गुण, तत्वों

- के गणधर्मों में आवर्तिता : आयनन एन्थैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी, विधुत ऋणात्मकता, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, संयोजकता की आवर्तिता या ऑक्सीकरण अवस्था।
12. **हाइड्रोजन-** आवर्त सारणी में स्थिति, प्राप्ति स्थान, समस्थानिक, छोटे पैमाने और औद्योगिक स्तर पर हाईड्रोजन बनाने की विधि एवं इसके गुण और उपयोग, हाइड्रोजन, कठोर जल, मृदु जल, भारी जल, हाइड्रोजन पराक्साइड, हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन।
13. **S-ब्लॉक के तत्व-** पृथकरण के सामान्य सिद्धांत और निष्कर्षण के सिद्धांत एवं विधियां।  
एल्युमिनियम (Al), कॉपर(Cu), जिंक (Zn) और आयरन (Fe) के निष्कर्षण में ऑक्सी-अपचयन विधि का उपयोग करना, S-ब्लॉक के तत्वः सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्राप्ति स्थान, प्रत्येक समूह के पहले तत्व का आसामान्य गुण, विकर्ण संबंध, गुणों की विविधता में रुझान, क्षारीय और क्षारीय मदा धातुओं की अभिक्रियाएं।  
कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बनाने की विधि, गुण व उपयोगः सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, चूना और चूने के पत्थर के औद्योगिक उपयोग, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का जैविक महत्व।
14. **P-ब्लॉक के तत्व-** इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वर्ग 13 से 18 के तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों में विभिन्नता, बोरेक्स, बॉरिक एसिड, बोरॉन हाइड्राइड एवं सिलिकॉन बनाने की विधि, गुण और उपयोग, नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन के आक्साइड, फासफोरस के अपर रूप, बनाने की विधि और उपयोग, फॉस्फिन, फॉस्फोरस पैटाक्लोराइड और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाने की विधि, गुण और उपयोग, ऑक्सीजन और ओजोन बनाने की विधि और गुण, समूह 16 के तत्वों के हाईड्राइड व हेलाइड की संरचना और प्रकृति, सल्फर के अपररूप- बनाने की विधि और गुण, सल्फर डाइऑक्साइड- बनाने की विधि गुण और उपयोग, सल्फर के ऑक्सी-एसिड का औद्योगिक निर्माण, हेलोजन और हेलोजन अम्ल बनाने की विधि और गुण, अंतर हेलोजन यौगिक, स्यूडोहेलोइड आयन, हेलोजन के ऑक्सी-अम्ल उनकी संरचना और प्रकृति, ज़ीनोन फ्लोराइड, ज़ीनोन ऑक्साइड और ज़ीनोन ऑक्सी फ्लोराइड के गुण और उपयोग।
15. **d और f-ब्लॉक के तत्व-** प्रस्तावना, इलेक्ट्रानिक विन्यास, गुणों में विविधता, पहली पंक्ति के संक्रमण धातु के गुणों का सामान्य परिचय : इलेक्ट्रानिक विन्यास और सामान्य प्रवर्ति, उत्प्रेरक गुण, चुम्बकीय गुण, धात्विक गुण, आयनन ऐन्थैल्पी, आक्सीकरण अवस्था, आयनिक त्रिज्या, रंगीन आयन बनाना, मिश्रधातु बनाना, अंतरकाषी यौगिक बनाना, पहली पंक्ति के संक्रमण तत्वों के आक्साइड, हेलाइड, सल्फाइड व जटिल यौगिक बनाना।  
KMnO4 और K2Cr207 बनाने की विधि, गुण एवं सरचना। लेन्थेनाइट्स और एक्टिनाइड।
16. **उपसहस्रयोजी/समन्वय यौगिक और कार्बधात्विक यौगिक-** यौगिकों का अर्थ वर्नर का सिद्धांत एवं लिगेन्ड, उनके प्रकार समन्वय संख्या, समन्वय यौगिकों का आईयूपीएसी (IUPAC) नामकरण, समावयवता, समन्वय यौगिकों में बंधन, रंग चुम्बकीय गुण और समन्वय यौगिकों का स्थायित्व, समन्वय यौगिकों के रासायनिक और जैविक महत्व, धातु कार्बनिल के बनाने की विधि, गुण और बंधन, कार्बधात्विक यौगिक और उनका वर्गीकरण।
17. **कार्बनिक रसायन शास्त्र-**  
कुछ बुनियादी सिद्धांत और तकनीक- कार्बनिक यौगिकों का सामान्य वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिकों के आकार-संकरण (sp, sp<sup>2</sup>, sp<sup>3</sup>), कार्बनिक अणुओं का संरचनात्मक प्रदर्शन, क्रियात्मक समूह, सजातीय श्रेणी। सामान्य या ट्रिवियल नाम, ऐलीफेटिक, ऐरोमेटिक और प्रतिस्थापित ऐरोमेटिक यौगिकों का नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण।  
समावयवता- संरचनात्मक और ज्यामितीय समावयवता, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि की मौलिक अवधारणाएँ : सहसंयोजक बंधन का विखण्डन, आक्रमणकारी (इलेक्ट्रान धनी) स्पीशीस के प्रकार, कार्बनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, एक सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन और कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार।  
कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण की विधियां: गुणात्मक विश्लेषण, मात्रात्मक विश्लेषण, तत्वों का आकलन, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र का निर्धारण।
18. **हाइड्रोकार्बनः हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण-**  
एल्केनः संरूपण (न्यूमैन प्रक्षेप और सॉहार्स प्रक्षेप सूत्र), भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रियाएं।  
साइक्लो एल्केनः बनाने की विधि, भौतिक और रासायनिक गुण, साइक्लो एल्केन (बेयर तनाव सिद्धांत) का स्थायित्व, साइक्लोहेक्सन की कुर्सी और नाव रूप।  
एल्कीन्स : द्वि-बन्ध की संरचना, ज्यामितीय समावयवता, भौतिक गुण, बनाने की विधियां, रासायनिक अभिक्रियाएं।  
एल्काइडाइन्सः वर्गीकरण, संयुग्मित डाईन्स को बनाने की विधि, रासायनिक गुण (1,2 और 1,4- एडिशन टू कन्जूगेटेड डाईन्स)  
एल्काइन्स : त्रि-बन्ध की संरचना, भौतिक गुण, बनाने की विधियां व रासायनिक गुण, एल्काइन की अम्लीय प्रकृति, एल्काइन की योगात्मक अभिक्रिया।  
ऐरोमेटिक हाइड्रोकार्बनः बैंजीन की संरचना, अनुनाद, ऐरोमेटिसिटी (हँकल का नियम), रासायनिक गुण, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन की क्रियाविधि, प्रतिस्थापन का एकल प्रतिस्थापित बैंजीन पर प्रत्यक्ष प्रभाव।

19. पर्यावरण रसायन- पर्यावरण प्रदूषण, वायुमंडलीय प्रदूषण, उष्णकटिबंधीय प्रदूषण (वायु प्रदूषण), प्रमुख वायु प्रदूषक, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, स्मॉग (रासायनिक और प्रकाष रासायनिक स्मॉग), स्ट्रेटोस्फेरिक प्रदूषण : ओजोन परत और इसका क्षय, अम्ल वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और औद्योगिक अपशिष्ट ।
20. हेलोएल्केन्स और हेलोऐरिन्स- वर्गीकरण, हेलोएल्कन और हेलोरीन्स के बनाने की विधियाँ एवं उनके भौतिक गुण, ऐल्कीन और एरिल हेलाईड के बीच भिन्नता बताने वाले परीक्षण, SN1 और SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, (सेटजेफ नियम, E1 और E2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि)।
- पॉली हेलोजन यौगिक : बनाने की विधियाँ और गुण।
21. एल्कोहल, फिनॉल और ईथर- एल्कोहल फिनोल और ईथर का वर्गीकरण, बनाने की विधियाँ, गुण और उपयोग, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के बीच अंतर। एल्कोहल और फिनोल के बीच अंतर। ईथर, बनाने की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुण।
22. एल्डीहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल- कार्बोनिल समूह की संरचना, एल्डीहाइड और कीटोन, बनाना, भौतिक, रासायनिक गुण और उपयोग। एल्डीहाइड और कीटोन के बीच अंतर करने के लिए परीक्षण। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना, भौतिक, रासायनिक गुण और उपयोग।
23. 23 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक- (एमीन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड्स, डायएजोनियम लवण)ः परिचय, वर्गीकरण, बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन के बीच अंतर करने के लिए परीक्षण।
- 24 बहुलक: बहुलीकरण, बहुलकों का वर्गीकरण- उत्पत्ति, संरचना, आण्विक बलों, बहुलीकरण के तरीकों के आधार पर। योगात्मतक बहुलीकरण संघनन बहुलीकरण (चरण वृद्धि बहुलीकरण) संघनन बहुलक बनाने की विधि, सिंथेटिक और प्राकृतिक रबड़ और वल्कनीकरण, बहुलक के आण्विक द्रव्यमान का निर्धारण। डिसपरसिटी सूचकांक (पीडीआई)। जैव-अपघटन बहुलक जैसे (पीएचबीवी) और नॉनबायो-डीग्रेडेबल पॉलिमर।

#### 25 जैवअणु (जैव रसायन):

**कार्बोहाइड्रेट:** कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, ग्लूकोज और फ्रूक्टोज़ का उनके रासायनिक गणों के आधार पर संरचनात्मक निर्धारण : विवृत/खुली श्रृंखला (फिशर) संरचना, चक्रीय संरचना (हावर्थ रूप) और ग्लूकोज के रूप, उत्परिवर्तन, एनोमर्स और एपिमर, ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं, अपचायी और अनअपचायी शर्करा, ग्लूकोज और फ्रूक्टोज का विन्यास। डाईसेकेराइड सूक्ष्मोज, पोलिसेकराइड, स्टार्च, सेल्यूलोस एवं एमाईलो पेक्टिन का हावर्थ प्रदर्शन, जीवित जीवों में कार्बोहाइड्रेट के कार्य। कार्बोहाइड्रेट चयापचय, ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन-परिवहन श्रृंखला,

**प्रोटीन:** एमिनो एसिड, जिवटर आयन, समविभव बिन्दु, पेप्टाइड्स और पेप्टाइड बंध, रेषेदार प्रोटीन, गोलाकार प्रोटीन और उनके कार्य, प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक (हेलिक्स और लहरियदार चद्वर संरचना) और तृतीयक संरचना, प्रोटीन का विकृतिकरण और अविकृतिकरण।

**एंजाइम :** एंजाइम गतिविधियों की विशिष्टता व कार्यप्रणाली, एंजाइम एवं सहएंजाइम के अनुप्रयोग।

**न्यूक्लियक एसिड:** न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, एटीपी (ATP) की संरचना, प्रकाश संश्लेषण (प्रकाश और अंधेरे की अभिक्रियाएँ), डीएनए (DNA) की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना (डबल हेलिक्स संरचना), न्यूक्लियक एसिड के जैविक कार्य, प्रतिकृतित्व, प्रोटीन संश्लेषण (अनुलेखन, स्थानांतरण एवं उत्परिवर्तन), जेनेटिक कोड, आनुवंशिक त्रुटियाँ।

**विटामिन :** वर्गीकरण, विटामिन की कमी से होने वाले रोग।

**हार्मोन :** स्टेरॉयड हार्मोन और गैर स्टेरॉयड हार्मोन एवं उनके कार्य।

#### 26 दैनिक जीवन में रसायन :

**इंग्स और औषधियाँ :** औषधी का परिचय, चयापचय, वर्गीकरण, औषधियाँ के लक्ष्य के रूप में एंजाइम, औषध ग्राही अन्योन्य क्रिया।

**औषधियों के प्रकार :** ज्वरनाशी, पीड़ाहारी, रोगाणुनाशी, पूर्तिरोधी, प्रतिजैवी, संकिर्ण स्पैक्ट्रम और विस्तृत स्पैक्ट्रम प्रतिजैवी, प्रषान्तक, प्रतिजीवाणु, अम्लतारोधी, उर्वरतारोधी, प्रतिहिस्टैमिन,

**खाद्य में रसायन :** खाद्य परिरक्षक, कृत्रिम मिठास पैदा करने वाले पदार्थ, साबुन और डिटर्जेंट, साबुन बनाना (साबुनीकरण) और डिटर्जेंट, साबुन प्रक्षालन क्रिया, साबुन पर डिटर्जेंट के फायदे, डिओडोरेंट्स, खाद्य रंग एवं प्रतिआक्सीकारक।

## 8. CHEMISTRY

- Some Basic concepts of Chemistry:** Scope of chemistry- Historical approach to nature of matter - states of matter, Concept of Elements, atoms and molecules, properties of matter and its measurement, S. I system of units, Uncertainty in measurements, dimensional analysis, Laws of chemical combination, atomic and molecular masses,

Mole concept and molar masses, percentage composition, empirical and molecular masses, equivalent weight, concept of limiting reagent.

**2 States of Matter:** Gases, liquids and solids, three states of matter, types of intermolecular forces.

The laws governing ideal gas behavior. Boyles law, Charles law, Gaylussacs law, Avogadros law. Dalton's law of partial pressure, Kinetic molecular theory of ideal gases, Maxwell Boltzmann distribution law on molecular motion, real gases – deviation from ideal behaviour, vander Waals equation.

**Liquid** and their properties as vapour pressure, viscosity and surface tension.

**Solids:** Classification of solids, fundamental types of lattices, two and three dimensional lattice types, Simple crystal structures, Transformation of crystal structure on varying temperature, Bragg's law, density in solids, energy band, band gaps, semiconductors, magnetic and dielectric properties, stoichiometric and non- stoichiometric defects in solids.

**3 Structure of Atom:** *Structure of Atom (Classical Theory)*, Dalton's atomic theory, Bohr's model of atom, *Structure of atom (modern theory)*, de Broglie's relationship, Heisenberg's uncertainty principal, Classical wave equation, Schrödinger's wave equation, Probability distribution curve, Quantum numbers, Pauli's exclusion principle, Aufbau principle, Hund's rule of maximum multiplicity.

**4 Equilibrium:** Reversible reactions, criteria of equilibrium, Law of mass action, equilibrium constant,  $K_c$  and  $K_p$ , Le Chatelier principle, Ionic equilibrium, Ostwald's dilution Law, solution of acids, bases, ionic equilibria in solution, Common ion effect – its application to qualitative analysis, acids and bases, Bronsted- Lowry theory of acids and bases, Lewis concept of acid and bases, relative strengths of acids and bases, their quantitative estimation, buffer solution and its use, determination of pH, theories of indicators, conductometric titration, Solubility product, hydrolysis.

**5. Surface Chemistry:** Adsorption, absorption, sorption, Physical adsorption, Chemisorption adsorption, isotherms (Freundlich, Langmuir), application of adsorption, types of Catalysis theories of catalysis, classification of colloids, preparation of Colloidal Solution (lyophobic and lyophilic), Special characteristics of colloidal solutions , electrophoresis, tyndal effect,Brownian movement, Precipitation of colloids – Hardy Schulze law, multimolecular and macromolecular colloids, Emulsion and Gels.

**6 Chemical Kinetics:** Theories of reaction rates, rate of reaction , factors affecting rates of reaction, molecularity and order of reaction, Fast reactions- Luminescence and energy transfer process, reaction mechanisms(Simple and complex reactions) Activation Energy Arhenius Equation. Half life of reaction.

**7 Redox Reaction and Electrochemistry:** Oxidation and reduction, redox reaction and its application, oxidation number, Strong and weak electrolytes, activity coefficient, conductance and conductivity, Kohlrausch law, resistance and resistivity molar conductivity, equivalent conductivity, Qualitative and quantitative aspect of electrolysis, electrochemical cell and electrolytic cell, Electrode and electrode potential and standard electrode potential, Electrochemical series and its applications, Nernst equation and its application, Equilibrium constant and EMF of the cell, fuel cells, corrosion.

**8 Solutions:** Solution and its types, expression of concentration of solution, solubility and factors affecting the solubility of a solid in a liquid (temperature and pressure), Vapour pressure of a liquid, Raoult's law for both volatile and non volatile solute,Ideal and non ideal solution, Colligative properties, abnormal molecular masses and Van't Hoff factor.

**9 Chemical bonding and Molecular Structure:** Valence electrons and Lewis structures, Ionic bond, Covalent bond, Bond parameters ,Co-ordinate bond, polarity and dipole moment, Quantitative idea of – valence bond theory, VSEPR theory, molecular orbital theory (LCAO), Concept of hybridization involving s, p, d orbitals, Hydrogen bond, Resonance.

**10. Thermodynamics:** Macroscopic properties of the system, modes of transfer of energy between system and surrounding, Phase transition, phase rule and phase diagram, First Law, second law and third law, of thermodynamics. Internal energy and enthalpy of the reaction, their measurement and application, spontaneity of process, Entropy and spontaneity, Helmholtz and Gibb's free energy, Thermodynamics of electrochemical cells.

**11. Classification of elements and periodicity in properties:** Significance of classification,brief history of the development of periodic table,modern periodic law and the present form of periodic table, periodic laws, name of the elements with  $Z>100$  according to IUPAC system, classification of elements into s, p, d, f –block elements and their characteristics, Periodic trends in the properties of elements – Ionization enthalpy, Electron gain enthalpy,electronegativity, atomic radii, ionic radii, periodicity of valency or oxidation state.

**12. Hydrogen:** Position of Hydrogen in periodic table, occurrence, isotopes, Preparation of hydrogen, on small and commercial scale, properties and uses. hydrides, water, hard and soft water, heavy water, hydrogen peroxide, hydrogen economy, hydrogen as a fuel.

**13. General principles and processes of isolation of elements and s – block elements:**

Principles and methods of extraction, oxidation and reduction as applied to the extraction procedures of Al, Cu, Zn and Fe. s – block elements, general introduction – Electronic configuration, occurrence, Anomalous properties of the first element of each group, diagonal relationship, Trends in variation of the properties, reaction of alkali and alkaline earth metals.

Preparation and properties and uses of some important compounds: - sodium carbonate, sodium bicarbonate, sodium chloride, sodium hydroxide, calcium hydroxide and calcium carbonate, industrial uses of lime and lime stone, biological importance of sodium, potassium, magnesium and calcium.

**14. p-Block Elements:** Electronic configuration, variation in physical and chemical properties and uses of groups 13 to 18, physical and chemical properties of borax, boric acid, boron hydride, silicones, preparation and uses, preparation, properties and uses of nitrogen, ammonia, nitric acid and oxides of nitrogen, phosphorus – allotropic forms, preparation and properties of phosphine, phosphorus pentachloride and phosphorus trichloride, preparation, properties and uses of oxygen and ozone, hydrides and halides of 16 group elements, their structure and nature, allotropic forms of sulphur- their preparation, preparation, properties and uses of sulphur dioxide, industrial preparation of oxo-acids of sulphur, preparation and properties of halogen and halogen acids, inter halogen compounds, pseudohalide ions. Oxo-acids of halogens, their structure and nature, preparation, properties and uses of xenon fluorides, oxides of xenon and xenon oxo fluorides.

**15. The d – and f- Block Elements:** General introduction, electronic configuration and general trend in the properties of first row transition metals like metallic character, ionization enthalpy, oxidation states, ionic radii, coloured ion formation, Alloy formation and Interstitial compound, catalytic properties, magnetic properties, oxides, halides and sulphides of first row transition metals, complex compound formation etc. Preparation, properties and structures of KMnO<sub>4</sub> and K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, lanthanoids and actinoids.

**16. Co-ordination Compounds and organometallics:** Meaning of co-ordination compounds, Werner's theory, ligands – their types, Coordination number, IUPAC nomenclature of co- ordination compounds, isomerism, bonding in co-ordination compounds, colour, magnetic properties and, stabilities of co-ordination compounds. Chemical and biological importance of coordination compounds, metal carbonyls: preparation, properties and bonding, organometallic compounds and their classification.

**17. Organic Chemistry : Some Basic Principles and Techniques:** General Classification of organic compounds, Shapes of organic compounds-Hybridisation(sp, sp<sub>2</sub>,sp<sub>3</sub>), Structural representation of organic molecules, Functional groups, Homologous, series. Common or trivial names, nomenclature of aliphatic, aromatic and substituted aromatic compounds. IUPAC Nomenclature.

**Isomerism :** Structural and Stereo isomerism **Fundamental Concepts in Reaction Mechanism:** Cleavage of covalent bond, Types of attacking species, electron movement in organic reactions, electronic displacement in a covalent bond and types of organic reactions.

**Methods of purification of organic compounds:** Qualitative analysis, Quantitative analysis., estimation of the elements and determination of empirical and molecular formula.

**18. Hydrocarbons:** Classification of hydrocarbons.

**Alkanes:** Conformations (Newmann and Sawhorse formulae), Physical properties, Chemical reactions

**Cycloalkanes:** Preparation, physical and chemical properties, stability of cycloalkanes(Bayer strain theory), chair and boat forms of cyclohexane.

**Alkenes:** structure of double bond, geometrical isomerism, physical properties, methods of preparation, chemical reactions.

**Alkadienes:** Classification of dienes, Preparation of conjugated dienes, Chemical properties(1,2 and 1,4- addition to conjugated dienes).

**Alkynes:** structure of triple bond, physical properties, methods of preparation Chemical properties, Acidic nature of alkynes, Addition reaction of alkynes.

**Aromatic Hydrocarbons:** Structure of benzene, resonance, aromaticity (Huckel's rule) Chemical properties, mechanism of electrophilic substitution direct influence of substituents in monosubstituted benzene.

**19. Environmental Chemistry:** Environmental pollution, Atmospheric pollution, Tropospheric pollution(Air pollution), Major air pollutants, Control of air pollution, Smog(Chemical and Photochemical smog), Stratospheric pollution: Ozone layer and its depletion, Acid rain, Green House Effect and Global warming, Water pollution, Soil pollution and Industrial waste.

**20. Haloalkanes and Haloarenes:** Classification, methods of preparation of haloalkanes and haloarenes, their physical properties, tests to distinguish between alkyl and aryl halides, **mechanism of SN1 and SN2 reactions**, elimination reactions (**Saytzeff Rule, E1 & E2 mechanism**).**Poly halogen compounds:** Preparation and properties.

**21. Alcohols, Phenols and Ethers:** Classification, preparation, properties and uses of Alcohols Phenols and Ethers tests to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols. Distinctions between alcohols and phenols. Preparation of ethers , physical and chemical properties.

**22. Aldehydes, Ketones and Carboxylic Acids:** Structure of carbonyl group, preparation of aldehydes and ketones, physical , Chemical properties and uses, tests to distinguish between aldehydes and ketones .Preparations of carboxylic acids physical, chemicals properties and uses.

**23. Organic compounds containing nitrogen (Amines,Cyanides, Isocyanides, Diazonium salts):** Introduction, Classification, methods of preparation, Physical, Chemical properties, uses. Tests to distinguish between primary, secondary and tertiary amines.

**24. Polymers:** Polymerization, Classification of polymers based on : origin, structure, molecular forces, mode of polymerization. **Addition polymerization Condensation polymerization(Step-growth polymerization)** Preparation of condensation polymers Synthetic and natural rubber and vulcanization, Determination of molecular mass of polymers:. Poly dispersity index(PDI). **Bio-degradable polymers like PHBV & Nonbio-degradable polymers.**

**25.Biomolecules(Biochemistry):Carbohydrates:**Classification of carbohydrates, Structural determination of glucose and fructose on the basis of their chemical properties, Open chain (Fischer) structure, cyclic structure(**Haworth form**), **β and α forms of glucose, Mutarotation, anomers and epimers**, Chemical reactions of glucose, Reducing and non-reducing sugars, Configuration of glucose and fructose. Disaccharides Sucrose, **Haworth representation of disaccharides**, Polysaccharides, Starch, Cellulose, and amylopectin structures, Functions of Carbohydrates in living organisms. Carbohydrate metabolism, glycolysis, electron-transport chain, **Proteins:** Amino acids, Zwitter ion, Isoelectric point, peptides and peptide bond, Fibrous proteins, Globular proteins and their functions, Primary, Secondary(Helix and pleated sheet structures) and tertiary structure of proteins, denaturation and renaturation, Enzymes, specificity and mechanism of enzyme activity , coenzymes, applications of enzymes.

**Nucleic acids :** Nucleosides, Nucleotides, Structure of ATP, Photosynthesis(Light and dark reactions) Primary and Secondary structure of DNA(Double Helix structure) , biological functions of nucleic acids, Replication, Protein synthesis (Transcription, Translation, mutation), genetic code, genetic errors, Vitamins, classification, diseases caused by the deficiency of vitamins, Hormones (steroid hormones and non-steroid hormones) and their functions.

**26. Chemistry in Everyday life: Drugs and medicines :** designing a drug, drug metabolism, classification of drugs, enzymes as drug targets, action of drug through drug receptor interaction, types of drugs: Antipyretics, Analgesics, antiseptics, disinfectants, tranquilizers, antimicrobials, antibiotics(Narrow spectrum and broad spectrum antibiotics), antifertility drugs, antihistamines, antacids. Chemicals in food, Food preservatives, artificial sweetening agents, Soaps and detergents, Preparation soaps(Saponification) and detergents, cleansing action of soaps, advantages of detergents over soaps, Deodorants, Edible colours, antioxidants.

## 9. गृह विज्ञान

### 1. गृह प्रबंध :

- गृह व्यवस्था (गृह विज्ञान) के क्षेत्र में रोजगार के अवसर।
- गृह प्रबंध की परिभाषा- गृह व्यवस्था की प्रक्रिया के प्रमुख सोपान - नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। तीनों में संबंध स्थापित करना, गृह व्यवस्था में महत्व।
- मूल्य लक्ष्य एवं स्तर- परिभाषा, अर्थ, प्रकार, पारस्परिक संबंध एवं गृह व्यवस्था में महत्व।
- निर्णय लेना- अर्थ, महत्व, प्रकार एवं प्रक्रिया।
- साधन- अर्थ, महत्व, साधनों का वर्गीकरण, समय एवं शक्ति व्यवस्थापन, समय एवं शक्ति की बचत एवं व्यवस्थापन में साधनों का महत्व, समय एवं शक्ति बचत के साधन।
- पारिवारिक बजट :
- आय व्यय, बचत एवं बैंकिंग - पारिवारिक आय, व्यय बजट - अर्थ, प्रकार, लाभ, बजट बनाना।
- बचत का महत्व।
- धन नियोजित करने के साधन - बैंक, जीवन बीमा, डाकखाना इत्यादि।

### 2. आहार एवं पोषण :

- भोजन- महत्व एवं कार्य- भोजन के प्रमुख घटक- प्राप्ति साधन, कमी एवं अधिकता से होने वाले रोग, कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। संतुलित आहार-परिभाषा, प्रभावित करने वाले कारक, कुपोषण अर्थ, प्रकार, कुपोषण के कारण- दूर करने के उपाय।
- आहार आयोजन - महत्व, प्रभावित करने वाले कारक, विभिन्न आयु समूह एवं गर्भवती स्त्री के आहार के आयोजन में ध्यान रखने योग्य बातें, बालक व गर्भवती स्त्री के लिये आहार आयोजन करना।

- भोज्य पदार्थों का संरक्षण - अर्थ, परिभाषा, महत्व, उद्देश्य, सिद्धान्त, क्षय के कारण, संरक्षण की विधियाँ (घरेलू एवं व्यावसायिक) पोषक तत्वों पर संरक्षण का प्रभाव, भोज्य पदार्थों के संरक्षण का व्यावसायिक उपयोग।
- खाद्य पदार्थों की स्वच्छता, विषाक्तता तथा बिमारियां- भोज्य पदार्थों को खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातें, स्वच्छता के नियम, भोजन विषाक्तता, भोजन द्वारा रोगों का संवाहन (पैचिश, दस्त, हैजा, पीलिया, तपैदिक, मोतीझारा)
- गृहणी एक उपभोक्ता के रूप में- उपभोक्ता शिक्षण, समस्याएं, अधिकार, दायित्व, उपभोक्ता के साधन।
- खाद्य पदार्थों में मिलावट- हानियां, कारण, खाद्य पदार्थों में मिलाये जाने वाले मिलावटी पदार्थ तथा उनकी पहचान, उपभोक्ता संरक्षण मानक संस्थाएं पैपैर थ्वैर थ्याए एगमार्क, उपभोक्ता संरक्षण कानून।
- वस्त्र विज्ञान- तन्तुओं का वर्गीकरण, प्राकृतिक एवं कृत्रिम तन्तुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण,
- वस्त्र परिसर्जना- अर्थ एवं प्रकार। रंगाई- प्रकार। धुलाई कला- विभिन्न वस्त्रों की धुलाई, दाग घब्बे छुड़ाना- नियम, विधियाँ।

### 3. शरीर विज्ञान :

- कोशिका एवं ऊतक - कोशिका का अर्थ, प्रकार, रचना, कार्य, जीव द्रव्य, गुण, ऊतक प्रकार।
- अस्थि संस्थान एवं माँसपेशी तंत्र - संरचना, प्रकार, कार्य, अस्थियाँ की संख्या, अस्थि संधियाँ, प्रकार, कार्टिलेन, पेशीतन्त्र की संरचना, कार्य, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक पेशी एवं उनके उपयोग।
- रक्त परिवर्तन संस्थान - हृदय की संरचना, रक्त परिवर्तन संस्थान की सामान्य संरचना एवं कार्य, रक्त की संरचना, रक्त का थक्का जमना।
- श्वासोच्चवास संस्थान - संरचना एवं कार्य, फेफड़े की संरचना, स्वसन की क्रिया विधि।
- पाचन संस्थान - संरचना एवं कार्य, पाचन क्रिया में सहायक अंग, व्यक्तिगत आरोग्य।
- उत्सर्जन संस्थान- वृक्क, त्वचा-संरचना व कार्य।
- प्रजनन संस्थान
- नाड़ी संस्थान- नाड़ी कोष की रचना, नाड़ी संस्थान के विभिन्न अंग- मस्तिष्क, सुषुभ्ना, नाड़ी की रचना, प्रकार, कार्य, प्रतिवर्ती क्रिया, स्वचलित नाड़ी संस्थान का सामान्य परिचय।
- जानेन्द्रियाँ- नेत्र, कान, जीभ, नासिका की रचना व कार्य, नेत्रदोष।
- नलिका विहीन ग्रन्थियाँ- प्रकार, स्त्रावित हार्मोन, कार्य, कमी व अधिकता से रोग।
- पर्यावरण- अर्थ, प्रकोप, जलसंरक्षण, रोग।
- प्राथमिक उपचार - धायल होने पर, रक्त स्राव, जलने एवं झुलसने पर, जहरीले, कीड़ों के काटने पर, डूबने पर, सदमा लगने पर, बिजली द्वारा करन्ट लगने पर, कुत्ते के काटने पर, सर्प दंश पर प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार का अर्थ, प्राथमिक चिकित्सक की योग्यताएं (गुण) विभिन्न प्रकार की पद्धियाँ, रक्त स्राव, विभिन्न प्रकार के दबाव बिन्दु धमनी एवं शिरा से रक्त स्राव, पुलिस, अस्थिभंग, कृत्रिम श्वसन।
- बाल विकास की अवस्थाएं, बाल व्यवहार, शारीरिक, मानसिक चारित्रिक, सामाजिक एवं भाषा विकास। बाल विकास में खेलकूद का महत्व।
- जीवाणु विज्ञान- जीवाणु कोशिका की रचना, आकृति, गतिशीलता, पोषण के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण, प्रजनन, जीवाणुओं का महत्व।

## 9. HOME SCIENCE

### 1. Home Management-

- Employment opportunity.
- **Definition of Home management-** Main steps of home management process planning, controlling, Evaluation, relationship among three importance in home management.
- **Values, Goals and Standard-** Definition, meaning, types and interrelationship and importance in home management process.
- **Decision Making –** meaning, importance types and process.
- **Resource–** Meaning, importance, classification of resources, time & power management, importance of resources in management of time and resources, time & power saving resources.

### 2. Family Budget-

- **Income, expenditure, saving and Banking–** Family income, expenditure, Budget– Meaning, types, advantage and making of Budget.
- Importance of saving.
- **Investing Money –** Bank, Life insurance, Post office, etc.

### 2. Food and Nutrition

- **Food** – Importance and function – main component of food – sources, diseases caused due to deficiency and excess.
- Classification of food products according to function. Balanced Diet- definition, factors effecting balance diet, mal nutrition, meaning, types, causes measures to remove.
- **Food Planning** – Importance, effecting factors, Points to be considered during food planning for different age group and pregnant lady, food planning for child and pregnant.
- **Preservation of food Products**– Meaning, definition, importance, objectives, Principles, cause of decay, methods of Preservation (Domestic and commercial), Effects of Preservation of nutrients, commercial use of preservation of nutrients.
- **Cleanlines of food, Food Poisoning & diseases**- Purchasing of food stuffs. Food poisoning, diseases transmitted through food {dysentry, loose motion, cholera, jaundice,tuberculosis, typhoid}
- **House wife as a consumer**- consumer education, problems, rights and responsibilities of consumer, sources of consumer.
- **Food Adulteration**- causes, adulterants and their detection , Consumer protection, standard Institution (ISI, FPO,PFA,AGMARK) Consumer protection act.
- **Cloth Science**- Classification of fibres, physical & chemical properties of natural & artificial fibres, cloth finishing : - meaning & types, washing of different clothes, stain remening- general laws & different methods of staing removing.

### 3. Anatomy

- **Cell and Tissue**- Meaning of cell, types, functions, structure, Protoplasm characteristics, types of tissues.
- **Skeleton System and Muscular System**– structure, type's functions, number of bones, joints, types, cartilage, structure of of muscular system, function, volentry & involantry muscles and their uses.
- **Blood Circulatory System**– Structure of heart, General structure and function of blood circulatory system, structure of blood, blood clot formation.
- **Respiratory System**– Structure and function, structures of lungs, action & method of respiratory system.
- **Digestive System**– Structure and function, helping parts in digetion. Personal Hygiene.
- **Excretory System**- Kidney, Skin- Structure, function.
- Reproductive Stystem.
- **Nervous System**- Structure of nerve cell, Different organs of nervous system- Brain, Spinal Cord. Structure of nerve, Reflex action, General Intoduction of autonomous nervous system.
- **Sense Organs**- Structure & function of Eye, Ear, Tongue, Nose. Defects of vision.
- **Endocrine glands**- Types, functions, secreted hormones, diseasees due to deficiency of excess secretion of hormone.
- **Environment**- Meaning, environmental hazards, Conservation of water, deaseas.
- **First aid**– injury, bleeding, burning, mild burning, poisnous insect bite, drowning, mental shock and electric shock, dog bite, snake bite, meaning of first aid, qualities of first aid, different types of strips, bleeding, different pressure points, bleeding of artigem veins, Pultis. Fracture, Artificial respiration.
- **Stages of child development**- Child behaviour, physical, mental, language, social , character development, Importance of Games in child development.
- **Bacteriology**- Cell structure, classification of bacteria (shape, motility, nutrution) Reproduction. Importance of Bacteria.

## 10. वाणिज्य

### अ. व्यवसाय अध्ययन एवं प्रबंध

1. **व्यवसाय का परिचय**- अवधारणा, विषेषताएं, उद्देष्य, व्यवसाय का वर्गीकरण-उद्योग, वाणिज्य एवं पेषा, व्यवसायिक संगठन का चुनाव- लघु स्तर व वृहत स्तर, उद्योगों के प्रकार, वाणिज्य का वर्गीकरण, व्यवसायिक जोखिम-प्रकृति एवं कारण।
2. **व्यवसायिक संगठन के रूप**- एकाकी व्यापार, संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय, साइडेनारी, संयुक्त स्कंध प्रमण्डल एवं उसका निर्माण, सहकारी संगठन।
3. **व्यवसाय के स्वामित्व**- निजी, सार्वजनिक एवं संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त उपक्रम की भूमिका, वैष्विक उपक्रम, पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप।
4. **व्यवसायिक सेवाएं**- बैंकिंग, बीमा, यातायात, भण्डारण, संदेश वाहन, आधुनिक तकनीकों का व्यवसायिक सेवाओं पर प्रभाव, डाकसेवा, टेलीकाम सेवा।